



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 5—अप्रैल 11, 2008 (चैत्र 16, 1930)
No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 5—APRIL 11, 2008 (CHAITRA 16, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

सं. 164, दिनांक 05 मार्च 2008—बल सेना अनुदेश 33/78 और उसमें जारी संशोधन बल सेना अनुदेश 11/02 के अधीन राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति (सीधा स्थाई कमिशन में) सहर्ष करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दत्त चिकित्सा कोर (सीधा स्थाई कमिशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

आशीष कालड़ा (डी आर-10588ए), 08 सितम्बर 2005 (एफएन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

आशीष कास्तर, (डीआर-10588ए), डी कोर-08 सितम्बर 2005 बी डी एस कुरुक्षेत्र

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 08 मार्च 2005 से दी जाती है (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए छः महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता भी शामिल है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

दीपक कालिया (डी आर-10589एच), 21 अगस्त 2006 ए डी कोर, बी डी एस—माहे एमडीएस—कर्नाटक

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 21 अगस्त 2003 से दी जाती है (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता भी शामिल है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

दरवक कालिया (डी आर-10589एच), 21 अगस्त 2006 (एफ एन), बी डी एस—एफएचई एडी सं.—प्रोसथोथेनिस

(अल्पकालीन कमिशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

प्रीति तहलान (डीएस-12170इल्चू), 26 अगस्त 2005

सेनधिल कुमार आर (डीएस-12171आई), 08 सितम्बर 2005

तिमोथो जॉर्ज (डीएस-12172एफ), 09 सितम्बर 2005

नवनीत व्यस (डीएस-12173के), 28 सितम्बर 2005

अमित बी महेश्वरी (डीएस-12174एम), 26 अक्टूबर 2005

एकलव्य टाक (डीएस-12175पी), 01 मार्च 2006

कोमल नारंग (डीएस-12176एफएस), 01 मार्च 2006

मुनिश्वर सिंह (डीएस-12178एच), 02 मार्च 2006

शिवानी मिश्रा (डीएस-12179एल), 03 मार्च 2006

विवेक कुमार सिंह (डीएस-12180ए), 04 मार्च 2006	बनीता डिलों (डीएस-12196एल), 16 मार्च 2006
शशिकला डी होनडल्लि (डीएस-12181एच), 04 मार्च 2006	विशाल सहाय (डीएस-12200एच), 17 मार्च 2006
कपिल तोमर (डीएस-12182एल), 06 मार्च 2006	रजत सूद (डीएस-12216एन), 23 मार्च 2006
अन्जनी कुमार झा (डीएस-12183एन), 08 मार्च 2006	गिरीश कुमार (डीएस-12218वाई), 26 अप्रैल 2006
कुन्दन कुमार (डीएस-12184डब्ल्यू), 09 मार्च 2006	कुलदीप सिंह (डीएस-12219एफ), 03 मई 2006
शायन मुखर्जी (डीएस-12185वाई), 09 मार्च 2006	राजेन्द्र कुमार (डीएस-12220डब्ल्यू), 04 मई 2006
अतुल गुप्ता (डीएस-12186एफ), 09 मार्च 2006	ध्रुव दुबे (डीएस-12221वाई), 10 मई 2006
अविना एस बनारी (डीएस-12188एम), 10 मार्च 2006	गौरव दुआ (डीएस-12222एफ), 12 मई 2006
सुदर्शन वैकटसुब्बा भट्ट (डीएस-12189पी), 10 मार्च 2006	विनोद कुमार (डीएस-12223के), 17 मई 2006
गगन दीप कोछड़ (डीएस-12191एम), 11 मार्च 2006	विनीत के ध्यानी (डीएस-12224एम), 19 मई 2006
विनोद पाल के (डीएस-12192पी), 13 मार्च 2006	रजनीश गोयल (डीएस-12187के), 10 मार्च 2006
प्रियंका प्रकाश (डीएस-12193एक्स), 14 मार्च 2006	नरेन्द्र कुमार (डीएस-12204वाई), 19 मार्च 2006
गौरव अरोड़ा (डीएस-12194ए), 16 मार्च 2006	अक्षय कन्नन (डीएस-12225पी), 05 जनवरी 2007
ओमेश टोकस (डीएस-12195एच), 16 मार्च 2006	आलिन्द मोहन भाथुर (डीएस-12226एक्स), 10 जनवरी 2007
अजय गुप्ता (डीएस-12197एन), 16 मार्च 2006	सतीश कुमार (डीएस-12227ए), 16 जनवरी 2007
मयंक खन्ना (डीएस-12198डब्ल्यू), 17 मार्च 2006	तपेश पॉल (डीएस-12228एच), 25 जनवरी 2007
सूरज प्रताप सिंह (डीएस-12199वाई), 17 मार्च 2006	बासु बंसल (डीएस-12229एल), 29 जनवरी 2007
चारु विंसा (डीएस-12201एल), 17 मार्च 2006	गौरव बंसल (डीएस-12230ए), 29 जनवरी 2007
अ एडिवन (डीएस-12202एन), 18 मार्च 2006	विजय साल एच ड (डीएस-12231एच), 31 जनवरी 2007
नितिन सिंह परिहार (डीएस-12203डब्ल्यू), 19 मार्च 2006	पुलिन बिहारी वर्मा (डीएस-12232एल), 01 फरवरी 2007
शबेन्द्र एम एच (डीएस-12205एफ), 20 मार्च 2006	अमृत धापा (डीएस-12233एन), 01 फरवरी 2007
अदित्य (डीएस-12206के), 20 मार्च 2006	विश्वरूप (डीएस-12234डब्ल्यू), 15 फरवरी 2007
एस कमला बेणो (डीएस-12207एम), 20 मार्च 2006	पंकज अरोड़ा (डीएस-12235वाई), 17 मार्च 2007
राहुल कुमार (डीएस-12208पी), 20 मार्च 2006	ए नवीन कुमार (डीएस-12236एफ), 21 मार्च 2007
हरिकृष्णा यादव (डीएस-12209एक्स), 20 मार्च 2006	गौरव (डीएस-12237के), 22 मार्च 2007
रितु मोहन (डीएस-12210एम), 20 मार्च 2006	सम्भूति अरोड़ा (डीएस-12238एम), 22 मार्च 2007
शालीन खेतरपाल (डीएस-12211पी), 21 मार्च 2006	श्रुति भसीन (डीएस-12239पी), 23 मार्च 2007
विक्रम एस केदलाय (डीएस-12212एक्स), 21 मार्च 2006	सपना परमार (डीएस-12240के), 23 मार्च 2007
राजशेखर डी गड्ड (डीएस-12213ए), 21 मार्च 2006	श्री गिरिवास आर (डीएस-12241पी), 26 मार्च 2007
मनोज पाण्डेय (डीएस-12214एच), 21 मार्च 2006	महेन्द्र त्रिपाठी (डीएस-12242पी), 26 मार्च 2007
लादे ध्यामसुंदर नरसिंगराव (डीएस-12215एल), 22 मार्च 2006	भीमसेन केशव चवदार (डीएस-12243एक्स), 26 मार्च 2007
पुष्पा कुमारी (डीएस-12217डब्ल्यू), 23 मार्च 2006	साक्षी शर्मा (डीएस-12244ए), 26 मार्च 2007
राजिन्द्र कौर भुल्लर (डीएस-12177ए), 02 मार्च 2006	अनुरूप प्रकाश (डीएस-12245एच), 04 मई 2007
थिरुवेलियुवन एन (डीएस-12190के), 11 मार्च 2006	प्रियंका बंगा (डीएस-12246एल), 10 मई 2007

चिन्मई राऊत (डीएस-12247एन), 10 मई 2007

सत्येन्द्र के (डीएस-12248डब्ल्यू), 11 मई 2007

रजत सूद (डीएस-12216एन), 23 मार्च 2006, एडी कोर, बी डी एस-शिमला

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 23 सितम्बर 2005 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता भी शामिल है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

ध्रुव दूबे (डीएस-12221वाई), 10 मई 2006, एडी कोर, बी डी एस-कोलकाता

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 10 नवम्बर 2005 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता भी शामिल है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

प्रियंका प्रकाश (डीएस-12193एक्स), 14 मार्च 2006, ए डी कोर, बी डी एस-कर्नाटक

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 14 सितम्बर 2005 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता भी शामिल है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

डी के तनेजा
मेजर जनरल
एडीजीडीएस

सेना शाखा

सं. 165, दिनांक 05 मार्च 2008.--राष्ट्रपति, सहर्ष यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 74/76 के अधीन निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टिनेंट के पद पर (परख पर)

दीने सेव (एम आर-08565ए), एएमसी, 26 मार्च 2007

विनय कुमार त्रिपाठी (एम आर-08448पी), एएमसी, 12 अक्टूबर 2006

वधु धर डैंगवाल (एम आर-08451पी), एएमसी, 12 अक्टूबर 2006

आर्यनी के पाण्डे (एम आर-08603एल), एएमसी, 31 अगस्त 2007

अशीश कुमार सिंह (एम आर-08605डब्ल्यू), एएमसी, 31 अगस्त 2007

फ्लाईंग अफिसर के पद पर (परख पर)

आलोक सिंह (एम आर-08446के) (एएफ-28873), एएमसी, 12 अक्टूबर 2006

जी रवीन्द्रानाथ
ब्रिगेडियर
उप. डीजीएफएमएस (पर्स)

सं. 166, दिनांक 05 मार्च 2008.--

थल सेना विभाग/एम जी ओ/ई एम ई कार्मिक

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नाम और पदोन्नति की तारीख

पदमाकर प्रसाद पाण्डे (जेसी-760690एल), 13 मई 2006

शुक्ला राधकृष्णन (जेसी-760779एक्स), 09 सितम्बर 2006

पृथ्वी नाथ त्रिपाठी (जेसी-700780एम), 09 सितम्बर 2006

ललित नारायण पाण्डे (जेसी-760781पी), 09 सितम्बर 2006

एन के कश्मीरा
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 167, दिनांक 05 मार्च 2008.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 26 अप्रैल 2007 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

फ्लाईट लेफ्टिनेंट के पद पर

लवनीत कौर (एमएस-14880एम), (एमआर-08515पी), (एएफ-26932जी), एएमसी, 31 मार्च 2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 11 नवम्बर 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

जी रवीन्द्रानाथ
उप. डीजीएफएमएस (पर्स)

सं. 168, दिनांक 07 मार्च 2008.--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

ब्रिगेडियर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) के रैंक में
एल के शर्मा (एमआर-03354के), 04 अप्रैल 2007 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले कार्पनिक वरीयता 01 मार्च 2007 से दी जाती है।

नरेश कुमार (एमआर-03044एच), 01 जून 2007 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले कार्पनिक वरीयता 01 जून 2007 से दी जाती है।

महावीर सिंह (एमआर-03029एन), 11 जून 2007 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले कार्पनिक वरियता 01 जून 2007 से दी जाती है।

एच एल काकरिया (एमआर-03434एल), 30 अगस्त 2007 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले कार्पनिक वरियता 01 जून 2007 से दी जाती है।

एम एन जी नायर (एमआर-03034वाई), 01 सितम्बर 2007

सी जे सिंह (एमआर-03436डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2007

ले कर्नल से कर्नल (टाईम स्केल) के पद पर

ले कर्नल ए के वालिया (एमआर-34053डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल एस डी आर क्षीर सागर (एमआर-3173एच), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल एस के जयपुरिहार (एमआर-3432ए), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल के के स्वामी (एमआर-3621के), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल ए सत्यनारायण (एमआर-3493एक्स), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल एच के कोचर (एमआर-3651एफ), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल (मिसेस) एम बीरदोलाई (एमआर-4290एल), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल के एस मेफावल (एमआर-3750के), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल आर एल जाट (एमआर-4076एक्स), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल एच बी रामचन्द्रा (एमआर-4626पी), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल वेनुगोपाल (एमआर-4834के), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल के बी श्रीनिवासन (एमआर-4696एन), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल एस एस गुलाटी (एमआर-3577एल), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल एस एस थिन्ड (एमआर-3587पी), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल एस के राणा (एमआर-4226एच), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल एस चौधरी (एमआर-3710एच), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल अजय मलिक (एमआर-4837एक्स), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल अरून चौधरी (एमआर-4239ए), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल के नागेन्द्रा (एमआर-4420एक्स), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल ए के शुक्ला (एमआर-4701एन), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल एच जे एस गिल (एमआर-3923डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल आर एस चटर्जी (एमआर-3987एफ), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल एस के सलूजा (एमआर-5371एम), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल पी आर अजमेर (एमआर-3747के), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल ए के श्रीवास्तवा (एमआर-4466ए), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल एस के मुद्गिल (एमआर-4619वाई), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल बी के भल्ला (एमआर-3288डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल आर के गौर (एमआर-3426एम), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल डी निझावन (एमआर-4136पी), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल ए के अगासे (एमआर-4320एच), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल यशिनंद सिंह (एमआर-3913एम), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल ए के वेहरे (एमआर-5439एच), 16 दिसम्बर 2004

ले कर्नल ए एस कश्यप (एमआर-04257एच), 09 दिसम्बर 2005

ले कर्नल आर जी पोडुवल (एमआर-04258एल), 09 दिसम्बर 2005

ले कर्नल सुधीर राय (एमआर-04265एफ), 09 दिसम्बर 2005

ले कर्नल ए के शर्मा (एमआर-04267एम), 09 दिसम्बर 2005

ले कर्नल एस राजागोपालन (एमआर-04269एम), 09 दिसम्बर 2005

ले कर्नल डी बागची (एमआर-04271पी), 09 दिसम्बर 2005

ले कर्नल ए बी खेर (एमआर-04272एक्स), 09 दिसम्बर 2005

ले कर्नल एम भगत (एमआर-04273ए), 09 दिसम्बर 2005

ले कर्नल डी बहादुर (एमआर-04274एच), 09 दिसम्बर 2005

ले कर्नल आर के एस यादव (एमआर-04275एल), 09 दिसम्बर 2005

ले कर्नल जगतार सिंह (एमआर-04276एन), 09 दिसम्बर 2005

ले कर्नल ए के वर्मा (एमआर-04280डब्ल्यू), 09 दिसम्बर 2005

ले कर्नल एच एस हुडा (एमआर-04281वाई), 09 दिसम्बर 2005

ले कर्नल एस तिरुमलाई (एमआर-04283के), 09 दिसम्बर 2005

ले कर्नल आर बी देवस्कर (एमआर-04285पी), 09 दिसम्बर 2005

ले कर्नल एस पाहवा (एमआर-04402पी), 09 दिसम्बर 2005

ले कर्नल आर अरुणाचलम (एमआर-04958वाई), 09 दिसम्बर 2005

ले कर्नल टी के सोम (एमआर-05351वाई), 09 दिसम्बर 2005

ले कर्नल एस पी सिंह (एमआर-05824एम), 21 दिसम्बर 2005

ले कर्नल बाई एस विष्ट (एमआर-05354एम), 23 दिसम्बर 2005

ले कर्नल एन के विश्वास (एमआर-05608वाई), 31 दिसम्बर 2005

ले कर्नल एम अरोरा (एमआर-04259एन), 05 जनवरी 2006

ले कर्नल के सी खरकवाल (एमआर-05343ए), 20 जनवरी 2006

ले कर्नल एस गोविन्द (एमआर-05103एच), 29 जनवरी 2006

ले कर्नल एस भार्गव (एमआर-05463वाई), 06 फरवरी 2006

ले कर्नल बी आनन्द (एमआर-05104एल), 09 फरवरी 2006

ले कर्नल एल सतीजा (एमआर-05054), 12 फरवरी 2006

ले कर्नल जी बी पांडेहारी (एमआर-05494वाई), 13 फरवरी 2006
 ले कर्नल पी के ठकुर (एमआर-04994के), 16 फरवरी 2006
 ले कर्नल आर के चावला (एमआर-05607डब्ल्यू), 16 फरवरी 2006
 ले कर्नल जी कमलापुरकर (एमआर-05105एन), 18 फरवरी 2006
 ले कर्नल ओ पी सिंह (एमआर-05231ए), 21 फरवरी 2006
 ले कर्नल एचन जीत सिंह (एमआर-05682ए), 21 फरवरी 2006
 ले कर्नल एस के भागु (एमआर-05175एम), 26 फरवरी 2006
 ले कर्नल मिसेज ए गोस्वामी वीएस एम (एमआर-4617ए),
 16 दिसम्बर 2004
 ले कर्नल डी के गुन्ड (एमआर-3664वाई), 16 दिसम्बर 2004
 ले कर्नल ए चट्टोपाध्याय (एमआर-4478पी), 16 दिसम्बर 2004
 ले कर्नल एम एल वर्मा (एमआर-4490डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004
 ले कर्नल पी एम बेडेकर (एमआर-4494एम), 16 दिसम्बर 2004
 ले कर्नल एस के कटियार (एमआर-4554डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004
 ले कर्नल ए सी महापात्रा (एमआर-4231एन), 16 दिसम्बर 2004
 ले कर्नल पुस्कर सिंह (एमआर-3704पी), 16 दिसम्बर 2004
 ले कर्नल उदयनाथ पाण्डे (एमआर-4633एल), 16 दिसम्बर 2004
 ले कर्नल देवेन्द्र कुमार (एमआर-4637एफ), 16 दिसम्बर 2004
 ले कर्नल एल एम पान्डे (एमआर-4850एफ), 16 दिसम्बर 2004
 ले कर्नल आर सी साहू (एमआर-4646एच), 16 दिसम्बर 2004
 ले कर्नल जी जयारामन (एमआर-5167एन), 16 दिसम्बर 2004
 ले कर्नल मिसेज नयनी सुरेखा (एमआर-4704एफ), 16 दिसम्बर
 2004
 ले कर्नल वी एस सरपाल (एमआर-4653वाई), 16 दिसम्बर 2004
 ले कर्नल मिसेज वी डी सरपाल (एमआर-5618एच), 18 जनवरी
 2005
 ले कर्नल देवेन्द्र स्वरूप (एमआर-5348वाई), 04 मार्च 2005
 ले कर्नल एस रमेश (एमआर-5101एक्स), 14 मई 2005
 ले कर्नल एस के सिंह (एमआर-5364डब्ल्यू), 27 जुलाई 2005
 ले कर्नल बी चौधरी (एमआर-5497एम), 19 अप्रैल 2006
 ले कर्नल एस चट्टोपाध्याय (एमआर-5368एम), 23 अप्रैल 2006
 ले कर्नल डी रामामूर्ति (एमआर-5646पी), 24 अप्रैल 2006
 ले कर्नल पी के सकलेचा (एमआर-5495एफ), 24 नवम्बर 2006
 ले कर्नल आर सुरेन्द्र (एमआर-4673), 01 जनवरी 2007

ले कर्नल बी के गांधी (एमआर-5349एफ), 18 जनवरी 2007
 ले कर्नल आर पी रामा (एमआर-5032एम), 28 फरवरी 2007
 ले कर्नल टी एन मुखर्जी (एमआर-4866एम), 17 अप्रैल 2007

सेना शाखा

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित ए एम सी अधिकारियों की उनके सामने देव
 स्थिति से पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के पद पर

पंकज राय (एमआर-08065एच) (27647), एएमसी, 30 दिसम्बर
 2004

करम चन्द्रजीत सिंह (एमआर-07890एन) (26940), एएमसी,
 04 जनवरी 2004

एम हरीश कुमार (एमआर-07867ए) (26938), एएमसी, 04 जनवरी
 2004

जी रवीन्द्रनाथ

त्रिगे.

उप डीजीएफएमएस (पर्स)

(थल सेना विभाग)

सं. 169, दिनांक 07 मार्च 2008.--थल सेना अनुदेश 37/78 व उसमें
 जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते
 हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्वायं कमिशन)

लै. कर्नल से कर्नल (टी एस) के पद पर

बी एस अजराबत (डी आर-10296एक्स), 16 दिसम्बर 2004

वाई त्यागी (डी आर-10312के), 19 फरवरी 2005

दलीप सेन (डी आर-10321ए), 19 फरवरी 2005

एस के मुखर्जी (डी आर-10316ए), 26 मार्च 2005

पी के आर्य (डी आर-10318एल), 19 अगस्त 2005

दलीप कुमार (डी आर-10323डब्ल्यू), 03 नवम्बर 2005

पी जी जोशी (डी आर-10325एफ), 15 जनवरी 2006

एम एस मनी (डी आर-10329एक्स), 03 फरवरी 2006

विनोद बब्बर (डी आर-10346एक्स), 04 अप्रैल 2006

गोता अरोड़ा (डी आर-10355एच), 10 मई 2006

पी के सिंघल (डी आर-10348एच), 14 दिसम्बर 2006

अनिल आहुजा (डी आर-10337डब्ल्यू), 04 मई 2007

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के पद पर

प्रिया जैराज (डी आर-10454एफ) (एफ-22507), 15 अप्रैल 2006

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन के पद पर

जे के जैन (डी आर-10317एच) (एफ-17798), 19 मई 2005

ए के शर्मा (डी आर-10314पी) (एफ-26027), 07 जुलाई 2005

आर के शर्मा (डी आर-10334एम) (एफ-18549), 30 नवम्बर 2005

डी के तनेजा
मेजर जनरल एडीजीडीएस

सेना शाखा

नियमित सेना

सेना सेवा कोर (पशु परिवहन)

सं. 170, दिनांक 07 मार्च 2008—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियों करते हैं:—

रिसालदार मेजर (ए एस एच)

रिसालदार यादव उदय भान एस बी (जेसी-680326वाई), 02 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

रिसालदार शोश राम (जेसी-680286एच), 02 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

रिसालदार एस के चटर्जी (जेसी-680523एफ), 01 सितम्बर 2007

रिसालदार (ए एस एच)

नायब रिसालदार जसविन्द सिंह (जेसी-680707ए), 12 मई 2007/01 मई 2007 *

नायब रिसालदार मोहम्मद यासीनोट (जेसी-680733एफ), 14 मई 2007/01 मई 2007 *

नायब रिसालदार हर राम (जेसी-680763वाई), 01 मई 2007

नायब रिसालदार छोटू राम (जेसी-680767के), 11 मई 2007/01 मई 2007 *

नायब रिसालदार नन्दजी तिहारी (जेसी-680770पी), 27 जून 2007/01 मई 2007 *

नायब रिसालदार थोम्स एम एस (जेसी-680771एक्स), 03 जुलाई 2007/01 मई 2007 *

नायब रिसालदार आर राधा क्रिशनन (जेसी-680773एच), 17 जुलाई 2007/01 मई 2007 *

नायब रिसालदार जय पाल सिंह (जेसी-680774एल), 16 जुलाई 2007/01 मई 2007 *

नायब रिसालदार सोबराम सिंह (जेसी-680777वाई), 13 जुलाई 2007/01 मई 2007 *

नायब रिसालदार प्रहलाद मीणा (जेसी-680779के), 01 जून 2007/01 मई 2007 *

नायब रिसालदार लेजर सी (जेसी-680786ए), 12 जुलाई 2007/01 मई 2007 *

नायब रिसालदार ब्रिज बिहारी सिंह (जेसी-680787एच), 11 जुलाई 2007/01 मई 2007 *

नायब रिसालदार त्रिवेनी सिंह (जेसी-680788एल), 30 जुलाई 2007/01 मई 2007 *

नायब रिसालदार हरेन्द्र सिंह (जेसी-680790एच), 11 जुलाई 2007/01 मई 2007 *

नायब रिसालदार चरन सिंह (जेसी-680792एच), 09 जुलाई 2007/01 मई 2007 *

नायब रिसालदार शेर सिंह (जेसी-680794वाई), 21 जुलाई 2007/01 मई 2007 *

नायब रिसालदार पी आर बरो (जेसी-680795एफ), 13 जुलाई 2007/01 मई 2007 *

नायब रिसालदार सचिन्द्रा सिंघा (जेसी-680800एफ), 07 जुलाई 2007/01 जून 2007 *

नायब रिसालदार जग राम गुजर (जेसी-680801एन), 06 सितम्बर 2007/01 जून 2007 *

नायब रिसालदार एम नन्दा बाबू सिंघा (जेसी-680802एन), 18 जुलाई 2007/01 जून 2007 *

नायब रिसालदार रघुबीर सिंह (जेसी-680803पी), 21 जुलाई 2007/01 जून 2007 *

नायब रिसालदार एम ए सब देसाई (जेसी-680805ए), 10 जुलाई 2007/01 जून 2007 *

नायब रिसालदार मारुती लक्ष्मण हुली (जेसी-680811एन), 18 जुलाई 2007/01 जून 2007 *

नायब रिसालदार टी मरिअप्पन (जेसी-680818एक्स), 20 जुलाई 2007/01 जून 2007 *

नायब रिसालदार एस एन सिंह (जेसी-680825एन), 23 जुलाई 2007/01 जून 2007 *

नायब रिसालदार शंकर लाल मीणा (जेसी-680822ए), 10 जुलाई 2007/01 जून 2007 *

नायब रिसालदार मन्नु सिंह (जेसी-680824एल), 19 जुलाई 2007/01 जून 2007 *

नायब रिसालदार कबाल सिंह (जेसी-680828एफ), 19 जुलाई 2007/01 जुलाई 2007 *

नायब रिसालदार घेवर राम (जेसी-680839एन), 30 जुलाई 2007/
01 जुलाई 2007 *

नायब रिसालदार एन के चौधरी (जेसी-680841एल), 14 अगस्त
2007/01 जुलाई 2007 *

नायब रिसालदार रमाकान्त (जेसी-680854एच), 16 जुलाई 2007/
01 जुलाई 2007 *

नायब रिसालदार बिरेन्द्र सिंह (जेसी-680855एल), 13 जुलाई 2007/
01 जुलाई 2007 *

नायब रिसालदार दीवान सिंह (जेसी-680859एफ), 01 अगस्त 2007

नायब रिसालदार धुराहु राम (जेसी-680860डब्ल्यू), 14 अगस्त 2007/
01 अगस्त 2007 *

नायब रिसालदार कोमल सिंह (जेसी-680668के), 01 अगस्त 2007

नायब रिसालदार श्री केश (जेसी-680864एम), 04 अगस्त 2007/
01 अगस्त 2007 *

नायब रिसालदार जे आर साकिया (जेसी-680871एच), 01 सितम्बर
2007 *

*वेतन और भत्ते पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दी जायेगी।

होपखाना रेजिमेन्ट

सबैटिव सूबेदार (जीडी) के पद में

नायब सूबेदार निरपाल सिंह (जेसी-264786एच), 01 अक्टूबर
2007/01 सितम्बर 2007 *

नायब सूबेदार दरवान सिंह (जेसी-266408एच), 03 सितम्बर 2007/
01 सितम्बर 2007 *

नायब सूबेदार गौरी शंकर राय (जेसी-266670एल), 07 सितम्बर
2007/01 सितम्बर 2007 *

नायब सूबेदार मोहनादास एम के (जेसी-267206एन), 01 अक्टूबर
2007/01 सितम्बर 2007 *

नायब सूबेदार अथे सिंह (जेसी-264334एल), 15 अक्टूबर 2007/
18 सितम्बर 2007 *

नायब सूबेदार राम विश्वास कुरावाह (जेसी-266574डब्ल्यू),
17 अक्टूबर 2007/01 जुलाई 2007 *

नायब सूबेदार बी पालानी (जेसी-268511एम), 19 अक्टूबर 2007/
01 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार दुश्धंत कुमार (जेसी-267943पी), 15 अक्टूबर 2007/
20 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार एस अंबेधू (जेसी-267842एफ), 01 नवम्बर 2007/
27 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार के तिरुमाला सारदी (जेसी-268504डब्ल्यू), 29 अक्टूबर
2007/27 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार पी मारियम्न (जेसी-266995वाई), 18 अक्टूबर 2007/
01 सितम्बर 2007 *

नायब सूबेदार जोम प्रकाश (जेसी-267271एन), 17 अक्टूबर 2007/
01 सितम्बर 2007 *

नायब सूबेदार राम लाल (जेसी-269045पी), 15 दिसम्बर 2007/
01 सितम्बर 2007 *

नायब सूबेदार जगभान सिंह (जेसी-267243एफ), 25 अक्टूबर
2007/20 सितम्बर 2007 *

नायब सूबेदार जगरूप सिंह (जेसी-267500एन), 29 अक्टूबर 2007/
01 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार सावेन्द्र सिंह (जेसी-268474के), 05 नवम्बर 2007/
13 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार रघुनाथ (जेसी-266710एफ), 19 नवम्बर 2007/
20 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार लेख राज (जेसी-267672एच), 19 नवम्बर 2007/
23 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार कुलदीप राज (जेसी-268389एफ), 14 नवम्बर 2007/23
अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार राकेश कुमार चौहान (जेसी-267708डब्ल्यू), 29 अक्टूबर
2007/27 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार मुरुकन बी (जेसी-268210एच), 01 नवम्बर 2007/
31 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार रोशन लाल (जेसी-266729ए), 29 अक्टूबर 2007/
01 अक्टूबर 2007 *

नायब सूबेदार जागीर सिंह (जेसी-267449वाई), 09 अक्टूबर 2007/
01 अक्टूबर 2007 *

नायब सूबेदार इन्द्रजीत सिंह (जेसी-267521के), 22 अक्टूबर 2007/
01 अक्टूबर 2007 *

नायब सूबेदार ठमा शंकर प्रसाद (जेसी-267472एम), 01 नवम्बर
2007

नायब सूबेदार गुरदेव सिंह (जेसी-267111एन), 15 दिसम्बर 2007/
01 अक्टूबर 2007 *

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

पी रामा शास्त्री
अवर सचिव

थलसेना विभाग (एम जी ओ) ईएमई कार्मिक

सं. 171, दिनांक 10 मार्च 2008.—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित फ़ैसलियां
करते हैं:—

सूबेदार मेजर आरमोर के रैंक में

सूबेदार सुप्रकाश मुखर्जी (जेसी-754473वाई), 06 नवम्बर 2007/
01 नवम्बर 2007 *

सूबेदार संतोष कुमार (जेसी-753511एक्स), 15 जनवरी 2007/
01 नवम्बर 2006 *

सूबेदार मेजर टेक (ए वी एन) के रैंक में

सूबेदार श्याम मोहन श्रीवास्तव (जेसी-753718एफ), 13 अक्टूबर
2007/01 अक्टूबर 2007 *

सूबेदार मेजर आरटीजन (ईसी) के रैंक में

सूबेदार देवादेवन एस (जेसी-752751एच), 10 सितम्बर 2007/
01 सितम्बर 2007 *

सूबेदार राम विनय प्रसाद (जेसी-752523ए), 29 मई 2007/01 मई
2007 *

सूबेदार जगदीश गिरी (जेसी-752029के), 04 सितम्बर 2007/
01 सितम्बर 2007 *

सूबेदार शमशाद अहमद (जेसी-751847वाई), 14 मई 2007/01 मई
2007 *

सूबेदार बिस्वा मोहन साहू (जेसी-751848एफ), 27 अगस्त 2007/
01 जून 2007 *

सूबेदार मनि राम (जेसी-751052एल), 01 मई 2007/01 मई 2007 *

सूबेदार ए सानमुगम (जेसी-752027वाई), 01 सितम्बर 2007/01 अगस्त
2007 *

सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-751830एल), 28 अगस्त 2007/01 अगस्त
2007 *

सूबेदार मेजर क्लर्क (जी डी) के रैंक में

सूबेदार राम बहादुर सिंह (जेसी-748654एन), 01 फरवरी 2007 *

सूबेदार जसविन्दर पॉल सिंह (जेसी-748883वाई), 01 मई 2007 *

सूबेदार शिव प्रसाद सिंह यादव (जेसी-748527वाई), 01 मार्च 2007 *

सूबेदार सूरज भान (जेसी-748877एल), 01 मई 2007 *

सूबेदार भडोलकर दत्त जेम्बा (जेसी-748997के), 01 मार्च 2007 *

सूबेदार मोहन ए (जेसी-748999पी), 01 मई 2007 *

सूबेदार चुनी लाल शर्मा (जेसी-748998एम), 02 अप्रैल 2007/
01 अप्रैल 2007 *

सूबेदार मुनन प्रसाद श्रीवास्तव (जेसी-749005पी), 06 सितम्बर
2007/01 अगस्त 2007 *

सूबेदार मेजर (डी डब्ल्यू) के रैंक में

सूबेदार विजय कुमार (जेसी-754966ए), 01 जनवरी 2006 *

सूबेदार पिताम्बर दत्त (जेसी-752924पी), 01 मई 2007 *

सूबेदार अनाड़ी चरण मोहंती (जेसी-753062एन), 04 सितम्बर
2007/01 सितम्बर 2007 *

सूबेदार देवेन्द्र प्रसाद (जेसी-752822आई), 01 मई 2007 *

सूबेदार भगवती प्रसाद (जेसी-752827एक्स), 15 अगस्त 2007/
01 अगस्त 2007 *

सूबेदार मोहम्मद मंजर (जेसी-752820एन), 05 फरवरी 2007/
01 फरवरी 2007 *

सूबेदार रघुवीर प्रसाद शर्मा (जेसी-752815एच), 02 फरवरी 2007/01
जनवरी 2007 *

सूबेदार दलवी सुभाष रघु (जेसी-753061एल), 29 जनवरी 2007/01
जनवरी 2007 *

सूबेदार मेजर (आर टी) के रैंक में

सूबेदार माधव नारायण शर्मा (जेसी-127283एल), 20 जुलाई 2007/
01 जून 2007 *

सूबेदार हरीश चन्द्र उपरेती (जेसी-127282एच), 21 जुलाई 2007/01
जून 2007 *

सूबेदार सुरेन्द्र कुमार शर्मा (जेसी-127284एन), 30 जुलाई 2007/01
जून 2007 *

सूबेदार दवारिका प्रसाद डोमरी (जेसी-127281ए), 14 मई 2007/
01 मई 2007 *

सूबेदार मेजर (एस के टी) के रैंक में

सूबेदार किलकर शंकर लक्ष्मण (जेसी-750686पी), 01 नवम्बर 2007 *

सूबेदार पोथाम्बरण वी (जेसी-749802ए), 01 फरवरी 2007 *

सूबेदार उपेन चन्द्रा बोरा (जेसी-749795पी), 10 फरवरी 2007/
01 फरवरी 2007 *

सूबेदार जीत सिंह (जेसी-750628एल), 26 अगस्त 2007/01 जून
2007 *

सूबेदार पूर्ण चन्द गुरानी (जेसी-749251ए), 03 फरवरी 2007/
01 जनवरी 2007 *

सूबेदार बिरेंद्र सिंह (जेसी-750631एल), 01 अक्टूबर 2007 *

सूबेदार मेजर टेक के रैंक में

सूबेदार आर मुक्कैया (जेसी-751181एल), 12 अक्टूबर 2007/
01 अक्टूबर 2007 *

सूबेदार राम अशीस चौबे (जेसी-750110एक्स), 01 मार्च 2007/
01 फरवरी 2007 *

सूबेदार शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी (जेसी-750767पी), 09 नवम्बर 2007/
01 नवम्बर 2007 *

- सूबेदार रतन मल्लिक (जेसी-750149के), 01 मार्च 2007 *
- सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-750354एल), 02 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *
- सूबेदार सरूप सिंह (जेसी-750589एक्स), 13 अक्टूबर 2007/01 अक्टूबर 2007 *
- सूबेदार अवध किशोर यादव (जेसी-749575एल), 08 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 *
- सूबेदार दिग्विजय सिंह (जेसी-750892वाई), 01 अक्टूबर 2007
- सूबेदार शक्ति पांडा हल्दर (जेसी-750206ए), 01 मार्च 2007
- सूबेदार केदार सिंह (जेसी-750268ए), 26 जुलाई 2007/01 जुलाई 2007 *
- सूबेदार सेन प्रताप सिंह (जेसी-750553वाई), 17 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *
- सूबेदार कृष्ण लाल (जेसी-749733पी), 01 फरवरी 2007/01 जनवरी 2007 *
- सूबेदार जोहर कुमार देवनाथ (जेसी-750770पी), 05 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007 *
- सूबेदार जेजी पांडुरंग (जेसी-750100एन), 03 मार्च 2007/01 अप्रैल 2007 *
- सूबेदार मिसबाहुल हक्क फारूकी (जेसी-750397ए), 01 मार्च 2007/01 फरवरी 2007 *
- सूबेदार मुथु आर (जेसी-749735ए), 30 दिसम्बर 2006/01 जुलाई 2006 *
- सूबेदार जंगी बाबू (जेसी-750426के), 01 अप्रैल 2007
- सूबेदार राम बाली प्रसाद यादव (जेसी-750780वाई), 05 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007 *
- सूबेदार जाफर हुसैन खान राही (जेसी-749738एन), 01 फरवरी 2007/01 जनवरी 2007 *
- सूबेदार सुदेवन पी वी (जेसी-750264के), 30 जुलाई 2007/01 जून 2007 *
- सूबेदार के सानमुगम (जेसी-750188एच), 15 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 *
- सूबेदार नंद किशोर शर्मा (जेसी-750801के), 07 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007 *
- सूबेदार लक्ष्मण सिंह पुंदीर (जेसी-750265एम), 02 अगस्त 2007/01 जुलाई 2007 *
- सूबेदार ओम प्रकाश नामर (जेसी-749739डब्ल्यू), 29 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 *
- सूबेदार धर्मानंद (जेसी-749998वाई), 29 मार्च 2007/01 जनवरी 2007 *
- सूबेदार कश्मीर सिंह (जेसी-750413एम), 01 मई 2007
- सूबेदार शिवराज सिंह राठीर (जेसी-750262वाई), 28 जुलाई 2007/01 जून 2007 *
- सूबेदार कर्ण सिंह रावत (जेसी-749722एच), 28 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 *
- सूबेदार आर एस विश्वकर्मा (जेसी-750419एन), 01 मई 2007
- सूबेदार राम बचन यादव (जेसी-750238एच), 01 अप्रैल 2007
- सूबेदार गोविंदा राजू पी एम (जेसी-750754एक्स), 03 नवम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007 *
- सूबेदार तुला राम (जेसी-749843के), 20 दिसम्बर 2006/01 नवम्बर 2006 *
- सूबेदार जयप्रकाश (जेसी-750274एन), 29 अक्टूबर 2007/01 अगस्त 2007 *
- सूबेदार राधाकृष्ण के आर (जेसी-751652एन), 10 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 *
- सूबेदार बिजली प्रसाद (जेसी-750569के), 03 सितम्बर 2007/01 सितम्बर 2007 *
- सूबेदार विनोद कुमार मिश्रा (जेसी-750263एफ), 30 जुलाई 2007/01 जून 2007 *
- सूबेदार विष्णु प्रकाश (जेसी-750418एल), 01 मई 2007
- सूबेदार सर्वजीत सिंह (जेसी-749902एल), 13 फरवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 *
- सूबेदार सुरेश चन्द्र (जेसी-750750एफ), 22 अक्टूबर 2007/01 अक्टूबर 2007 *
- सूबेदार कवि राज (जेसी-749491एक्स), 15 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 *
- सूबेदार उमा शंकर राई (जेसी-750828एफ), 02 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *
- सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-750557पी), 05 सितम्बर 2007/01 सितम्बर 2007 *
- सूबेदार विध्यानंद शर्मा (जेसी-749903एन), 13 जनवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 *
- सूबेदार भोगे अशोक सतनाला (जेसी-750186एक्स), 06 मार्च 2007/01 फरवरी 2007 *
- सूबेदार एस भमोहरण (जेसी-749973एम), 02 फरवरी 2007/01 जनवरी 2007 *
- सूबेदार लाला राम (जेसी-750415एक्स), 01 मई 2007
- सूबेदार बलवंत सिंह (जेसी-750350पी), 01 अप्रैल 2007
- सूबेदार गीतम सिंह (जेसी-749971एफ), 05 फरवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

सूबेदार सुरेशपाल (जेसी-750406डब्ल्यू), 09 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

सूबेदार जयप्रकाश यादव (जेसी-750061ए), 30 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

सूबेदार काले शंकर मारुति (जेसी-749996एन), 24 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

सूबेदार सशिभरण जी (जेसी-749545एन), 03 अक्टूबर 2006/01 सितम्बर 2006 *

सूबेदार बलवीर सिंह (जेसी-750055एम), 29 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

सूबेदार रामाशीश मिश्रा (जेसी-750077एल), 19 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 *

सूबेदार डी पलानी (जेसी-749967वाई), 06 नवम्बर 2006/01 नवम्बर 2006 *

सूबेदार गियान सिंह (जेसी-750297पी), 05 सितम्बर 2007/01 अगस्त 2007 *

सूबेदार सुन्दर लाल (जेसी-750566डब्ल्यू), 27 सितम्बर 2007/01 सितम्बर 2007 *

सूबेदार सुशील कुमार (जेसी-750102वाई), 19 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 *

सूबेदार देब प्रसाद दाश (जेसी-750062एच), 29 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

सूबेदार राज कुमार ठाकुर (जेसी-750576ए), 12 अक्टूबर 2007/01 सितम्बर 2007 *

सूबेदार वर्गिस के एम (जेसी-750078एन), 12 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 *

सूबेदार ए मरियप्पन (जेसी-750571एफ), 05 सितम्बर 2007/01 सितम्बर 2007 *

सूबेदार हरेन्द्र सिंह (जेसी-750112एच), 01 फरवरी 2007

सूबेदार एन नरसिंहा राजन (जेसी-750269एच), 27 जुलाई 2007/01 जुलाई 2007 *

सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-750643ए), 11 अक्टूबर 2007/01 अक्टूबर 2007 *

सूबेदार चन्द्रमौल सिंह (जेसी-750552डब्ल्यू), 05 सितम्बर 2007/01 सितम्बर 2007 *

सूबेदार सुरेश बाबू बी (जेसी-750098एफ), 01 मार्च 2007

सूबेदार नटराज रामचन्द्र झेन्दे (जेसी-750323एल), 27 अगस्त 2007/01 अगस्त 2007 *

सूबेदार भूपिंदर कुमार (जेसी-750585एफ), 11 अक्टूबर 2007/01 अक्टूबर 2007 *

सूबेदार नंद कुमारण केजी (जेसी-750741ए), 01 अक्टूबर 2007

सूबेदार गुलशन कुमार (जेसी-750573एम), 07 सितम्बर 2007/01 सितम्बर 2007 *

सूबेदार मेजर (टेक ए वी एन) के रैंक में

सूबेदार रमेशचन्द्र नाथ त्रिपाठी (जेसी-750444एम), 11 अक्टूबर 2007/01 अगस्त 2007 *

सूबेदार अनुब टी के (जेसी-750285ए), 04 सितम्बर 2007/01 अगस्त 2007 *

सूबेदार अबदुर राव अंसारी (जेसी-750559ए), 08 अक्टूबर 2007/01 सितम्बर 2007 *

सूबेदार विक्रम परिछा (जेसी-753760डब्ल्यू), 07 सितम्बर 2007/01 सितम्बर 2007 *

सूबेदार सुरेश चन्द यादव (जेसी-753756एन), 06 अगस्त 2007/01 जून 2007 *

सूबेदार राधे श्याम सिंह (जेसी-753740एच), 10 मई 2007/01 मई 2007 *

सूबेदार सुशील मंडल (जेसी-753759एफ), 07 सितम्बर 2007/01 अगस्त 2007 *

सूबेदार उमेश कुमार सिंह (जेसी-753742एन), 07 मई 2007/01 मई 2007 *

सूबेदार श्रीवात्सा कुमार खराल (जेसी-753743एन), 25 अगस्त 2007/01 अगस्त 2007 *

सूबेदार विजय कुमार (जेसी-753717पी), 01 अप्रैल 2007/01 मार्च 2007 *

*पिछली तारीख से करीयता दी जाती है।

सूबेदार (आरमोर) के रैंक में

नायब सूबेदार सेमोन के सी (जेसी-757988के), 09 फरवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार दयानिधि (जेसी-758068वाई), 01 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

सूबेदार आरटीजन (ई सी) के रैंक में

नायब सूबेदार एम नागराजन (जेसी-756909एक्स), 02 जनवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 *

नायब सूबेदार सत्यवीर (जेसी-757114डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार ठाकुर सिंह बफिला (जेसी-757146वाई), 01 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार ओम प्रकाश विश्वाकर्मा (जेसी-758488वाई), 19 फरवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार मदनमोहन मंडल (जेसी-758492एफ), 17 मार्च 2007/01 फरवरी 2007 *

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जेसी-758501एक्स), 07 मार्च 2007/01 फरवरी 2007 *

नायब सूबेदार परमानंद शर्मा (जेसी-757134के), 01 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार वैकट रमन ईप्पली (जेसी-757028एल), 01 अप्रैल 2007/01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार जुगल किशोर यादव (जेसी-757139एच), 01 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार संतोष कुमार (जेसी-758819पी), 03 अप्रैल 2007/05 दिसम्बर 2006 *

नायब सूबेदार कर्मवीर (जेसी-757013एच), 03 अप्रैल 2007/05 दिसम्बर 2006 *

नायब सूबेदार राजहंस गजानन श्रीराम (जेसी-758503एच), 09 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार परमेश्वर नायर के आर (जेसी-758499एल), 16 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

सूबेदार आरटीजन (एन ई) के रैंक में

नायब सूबेदार बाबूधन राम (जेसी-756414एल), 09 फरवरी 2007/06 जुलाई 2006 *

नायब सूबेदार धुवनरायणन द्वा (जेसी-757309एफ), 01 जनवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 *

नायब सूबेदार संकर कुमार मिश्रा (जेसी-756543एल), 11 अप्रैल 2007/27 नवम्बर 2006 *

सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार सीता राम दास (जेसी-754644ए), 26 मार्च 2007/01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र खंडा (जेसी-754679डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2007/01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार सुदर्शन बेहरा (जेसी-754681एच), 16 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार बेनुदर सामल (जेसी-754643एक्स), 28 मार्च 2007/01 मार्च 2007 *

सूबेदार (डी डब्ल्यू) के रैंक में

नायब सूबेदार जस्राम यादव (जेसी-758924एल), 12 फरवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार लाल सिंह (जेसी-758973एन), 03 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 *

नायब सूबेदार तोरन सिंह (जेसी-759121एल), 06 मार्च 2007/01 फरवरी 2007 *

नायब सूबेदार समपत मुचंडी (जेसी-759079एक्स), 08 मार्च 2007/01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार दिनेश कुमार शर्मा (जेसी-759081पी), 05 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार मनि धन सिंह (जेसी-758769पी), 10 अप्रैल 2007/05 दिसम्बर 2006 *

सूबेदार (आर टी) के रैंक में

नायब सूबेदार कर्पा शंकर (जेसी-752190वाई), 03 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 *

सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

नायब सूबेदार मुलक राज (जेसी-754478एक्स), 01 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 *

नायब सूबेदार साधिया नारायण शांशरी (जेसी-754479ए), 05 मार्च 2007/01 फरवरी 2007 *

नायब सूबेदार ओमपाल शर्मा (जेसी-754532ए), 05 मार्च 2007/01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार बाबू सिंह (जेसी-754533एच), 03 अप्रैल 2007/01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार बिलुपन कुमार बरुहा (जेसी-754484एल), 01 मार्च 2007/01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार एच बी सी कंडपाल (जेसी-754636एफ), 03 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

सूबेदार टेक के रैंक में

नायब सूबेदार जैड नज़र (जेसी-754713एल), 19 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार पूर्ण नंद (जेसी-754616एन), 03 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार जवन गोरख महादेव (जेसी-756879एल), 12 जनवरी 2007/01 नवम्बर 2006 *

नायब सूबेदार धर्म पाल (जेसी-757116एफ), 10 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार हरीश चन्द्र (जेसी-756730के), 18 अप्रैल 2007/23 जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार अभिताव कोनर (जेसी-756921वाई), 18 जनवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 *

नायब सूबेदार तर्केश्वर मिश्रा (जेसी-757128डब्ल्यू), 04 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार पी के स्वेन (जेसी-756988एक्स), 13 मार्च 2007/
01 फरवरी 2007 *

नायब सूबेदार जशोद सिंह बिष्ट (जेसी-756887के), 03 फरवरी
2007/01 जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार गियान चन्द (जेसी-756957एक्स), 03 फरवरी 2007/
01 जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार पूर्ण सिंह (जेसी-757104एम), 03 अप्रैल 2007/
01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-756999के), 03 फरवरी 2007/
01 फरवरी 2007 *

नायब सूबेदार हरी कुर्टन (जेसी-757063एन), 02 मार्च 2007/
01 फरवरी 2007 *

नायब सूबेदार मारकण्डे प्रसाद शुक्ला (जेसी-757026ए), 05 अप्रैल
2007/01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार रतन कुमार मंडौल (जेसी-757007पी), 01 फरवरी
2007/01 फरवरी 2007 *

नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह (जेसी-757111एच), 01 अप्रैल 2007/
01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार सुखेंद्र नाथ (जेसी-757009ए), 19 फरवरी 2007/
01 फरवरी 2007 *

नायब सूबेदार राम जयाम एम (जेसी-757078डब्ल्यू), 04 अप्रैल
2007/01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार महावीर सिंह (जेसी-757010पी), 01 फरवरी 2007/
01 फरवरी 2007 *

नायब सूबेदार संजय कुमार (जेसी-756435एफ), 03 अप्रैल 2007/
25 फरवरी 2007 *

नायब सूबेदार महा नारायण (जेसी-756989ए), 19 मार्च 2007/
01 फरवरी 2007 *

नायब सूबेदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-757072पी), 08 मार्च
2007/01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार पीर मोहम्मद (जेसी-756990पी), 01 मार्च 2007/
01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह (जेसी-757070एल), 05 मार्च 2007/
01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार तलेबार रहमान (जेसी-757022के), 01 मार्च 2007/
01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार राकेश बाबू यादव (जेसी-757062एल), 01 फरवरी
2007/01 फरवरी 2007 *

नायब सूबेदार चन्द्रमणि परिडा (जेसी-757066एफ), 14 मार्च
2007/01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार मुनवीर सिंह (जेसी-756932एल), 03 अप्रैल 2007/
01 जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार एस अलगरसामी (जेसी-757068एम), 08 मार्च 2007/
01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार महिन्द्र सिंह (जेसी-756927ए), 20 मार्च 2007/
01 जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार अंबिका प्रसाद आचार्य (जेसी-757071एम), 08 मार्च
2007/01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार एम गुगासेकन (जेसी-756881एच), 26 दिसम्बर
2006/01 नवम्बर 2006 *

नायब सूबेदार मेघराज तनवर (जेसी-757109एल), 03 अप्रैल 2007/
01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार संजोव कुमार एस (जेसी-757077एन), 02 अप्रैल
2007/01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार रहीमत खान (जेसी-757076एल), 09 अप्रैल 2007/
01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार भंवर लाल कुम्हार (जेसी-757107ए), 01 अप्रैल 2007/
01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार मोहम्मद रबिगूलहक्क भोला (जेसी-757148के),
01 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार बी एस चौहान (जेसी-756997वाई), 26 मार्च 2007/
01 जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार प्रेम कुमार (जेसी-757074ए), 02 अप्रैल 2007/
01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार रजत कुमार मैत्रा (जेसी-757149एम), 01 अप्रैल
2007/01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार पीताम्बर दत्त (जेसी-757105पी), 04 अप्रैल 2007/
01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार महादेव साहु (जेसी-757075एच), 04 अप्रैल 2007/
01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार जयपाल (जेसी-757106एक्स), 03 अप्रैल 2007/
01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार उत्तम सिंह (जेसी-757147एफ), 05 अप्रैल 2007/
01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-757069पी), 01 अप्रैल 2007/
01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार अब्दुल खैर (जेसी-757121एम), 04 अप्रैल 2007/
01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-757126एल), 04 अप्रैल 2007/
01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-757145एक्स), 03 अप्रैल 2007/
01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार एम भीष्म राव (जेसी-757138ए), 03 अप्रैल 2007/
01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार थोमस ए (जेसी-757135एम), 02 अप्रैल 2007/
01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार रमेश नाथ त्रिपाठी (जेसी-757127एन), 04 अप्रैल
2007/01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार विजय सरकार (जेसी-757137एक्स), 01 अप्रैल 2007/01
अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार श्री संतोष कुमार (जेसी-757119पी), 03 अप्रैल 2007/
01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार शशि के (जेसी-757125एच), 01 अप्रैल 2007/
01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार एस सौन्दा राजन (जेसी-757027एच), 13 अप्रैल
2007/01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-757140एक्स), 07 अप्रैल 2007/
01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार सुरेश बाबू (जेसी-757122पी), 01 अप्रैल 2007/
01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार रामनिवास शर्मा (जेसी-757023एम), 07 मार्च 2007/
01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार प्रकाश के (जेसी-757129आई), 02 अप्रैल 2007/
01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार विजय कुमार पी (जेसी-757025एक्स), 03 अप्रैल
2007/01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार ब्रह्मनंद झा (जेसी-757133एफ), 01 अप्रैल 2007/
01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार संतोष कुमार साहु (जेसी-756597एम), 28 मार्च 2007/
01 सितम्बर 2006 *

नायब सूबेदार महेन्द्र प्रताप (जेसी-757024पी), 01 अप्रैल 2007/
01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार सत्य नाथ मोहता (जेसी-757141ए), 02 अप्रैल 2007/
01 अप्रैल 2007 *

*(पिछली तारीख से बरीयता दी जाती है)

एन के कस्मीरा
अपर सचिव

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 172, दिनांक 10 मार्च 2008--निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक 01 सितम्बर 2007 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं:--

क्रम. सं.	नाम श्री/श्रीमती	प्रयोगशाला/स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नति ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1.	ओम प्रकाश	आईआरडीई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
2.	ए के गौड़	आईआरडीई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
3.	पी कृष्णन	लसटेक	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
4.	विनोद कुमार चौधरी	टीबीआरएल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
5.	गुरुदीप सिंह	टीबीआरएल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
6.	जे के प्रसाद	एनएसटीएल	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	12,000-375-16,500
7.	एम राव जगदीसवर	एनएसटीएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200
8.	पी कनीकि रेड्डी	एनएसटीएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200
9.	आर राजश्री	एनएसटीएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200
10.	पी वी श्रीन्याचारी	एनएसटीएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200
11.	बी वी नागेश्वर राव	एनएसटीएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200
12.	बी रामाकृष्ण राव	एनएसटीएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200

1	2	3	4	5	6
13.	के उपमाक राजू	एनएसटीएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200
14.	के उत्तमा भास्कर	एनएसटीएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200
15.	टी वेंकटरत्नम	एनएसटीएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200
16.	आर भाधवा राव	एनएसटीएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	8,000-275-13,500
17.	एन रेनू कुमार	एनएसटीएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	8,000-275-13,500
18.	ए एस एन मूर्ति	एनएसटीएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	8,000-275-13,500
19.	एम नागा राजू	एनएसटीएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	8,000-275-13,500
20.	पी आदिनारायण	एनएसटीएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	8,000-275-13,500
21.	ए उमा कांत राव	एनएसटीएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	8,000-275-13,500
22.	पी वी आर के रायलू	एनएसटीएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	8,000-275-13,500
23.	अशोक कुमार एनरोल	टीबीआरएल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	7,450-225-11,500
24.	एन डी मिश्र	टीबीआरएल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	7,450-225-11,500
25.	बलविन्दर सिंह	टीबीआरएल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	7,450-225-11,500
26.	बालकृष्ण	टीबीआरएल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	7,450-225-11,500
27.	हर देव सिंह	टीबीआरएल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	7,450-225-11,500
28.	ए एस लखड़ा	आईआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	12,000-375-16,500
29.	विनोद कुमार दालाकोटी	आईआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200
30.	दिनेश चन्द्र जोशी	आईआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200
31.	डी पी बहुगुणा	आईआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200
32.	राम विनय सिंह	आईआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200
33.	ब्रह्म प्रकाश	आईआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200
34.	मेजर सिंह	आईआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200
35.	विपिन चन्द्र	आईआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200
36.	आर एम धिलविथाल	आईआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	8,000-275-13,500
37.	के एल भाटिया	आईआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	8,000-275-13,500
38.	मंसूर अहमद	आईआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	8,000-275-13,500
39.	आर पी कोटनाला	आईआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	8,000-275-13,500
40.	ए वी देओस्यले	आरडीईई	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	12,000-375-16,500
41.	वी ए ओरपे	आरडीईई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200
42.	वी एम दांगे	आरडीईई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200
43.	एस डी लङ्कन	आरडीईई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200
44.	पी के गंगोपाध्याय	आरडीईई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200
45.	एस एस कुम्भर	आरडीईई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	10,000-325-15,200
46.	एस बी एकलेयर	आरडीईई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	8,000-275-13,500

1	2	3	4	5	6
47.	ए एस मुदलियार	आरडीईई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	8,000-275-13,500
48.	बी पी साबले	आरडीईई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	8,000-275-13,500
49.	वी आर जलवादी	आरडीईई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	8,000-275-13,500
50.	एन पी देशमुख	आरडीईई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	8,000-275-13,500
51.	एन मधु सुदनन	आरडीईई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	8,000-275-13,500
52.	आर बी तोड़कर	आरडीईई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	8,000-275-13,500
53.	आर बी वाले	आरडीईई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	8,000-275-13,500
54.	जी आर सन्तुते	आरडीईई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	8,000-275-13,500
55.	आर पी भलगत	आरडीईई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	7,450-225-11,500
56.	क्लारा जैकोंथ	आरडीईई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	7,450-225-11,500
57.	ए डी भोसले	आरडीईई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	7,450-225-11,500
58.	एस एस भावे	आरडीईई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	7,450-225-11,500
59.	एस एन दूबे	आरडीईई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	7,450-225-11,500
60.	बी एस कवितकर	आरडीईई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	7,450-225-11,500
61.	बी ई मोरे	आरडीईई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	7,450-225-11,500

बी बी शर्मा
सं. निदेशक (कार्मिक-I)

वायु शाखा

सं. 173, दिनांक 10 मार्च 2008.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

एयर कॉमोडोर के मूल रैंक में:--

पी पी खांडेकर (15095), वै. ई. (वै.), 01 अक्टूबर 2007

[इनका नाम एयर कॉमोडोर आर चौपड़ा (15087), वै. ई. (वै.) के नीचे आएगा]

सी मोहन्ती (15084), वै. ई. (वै.), 01 दिसम्बर 2007

आर चौपड़ा (15087), वै. ई. (वै.), 03 सितम्बर 2007

[इनका नाम एयर कॉमोडोर डी. एस. खाजुरिया (15073), वै. ई. (वां.) के नीचे आएगा]

उड़ान शाखा

एयर कॉमोडोर के मूल रैंक में:--

आर धर (14561), ड. (पा.), 16 जून 2007/01 मार्च 2006 (केवल वरियता के आधार पर)

[इनका नाम एयर कॉमोडोर आर धर (14559), ड. (पा.) के नीचे और एयर कॉमोडोर वी के चौपड़ा (14563) ड. (पा.) के ऊपर आयेगा]

एस नीलकण्ठ (15184), ड. (पा.), 25 अक्टूबर, 11 जून 2007 (केवल वरियता के आधार पर)

ए पी कादुसकर (15189) ड. (पा.), 11 जून 2007 (रिटायर्ड 14 अगस्त 2007)

के पी नायर (15195), ड. (पा.), 11 जून 2007

के एस भारद्वाज (15207), ड. (पा.), 11 जून 2007

के एस गिल (15220), ड. (पा.), 26 सितम्बर 2007/01 सितम्बर 2007 (केवल वरियता के आधार पर)

ए एस भोसले (15327), ड. (पा.), 01 सितम्बर 2007

जी पी सिंह (15417), ड. (पा.), 01 सितम्बर 2007

बी पी उप्पट (15544), ड. (पा.), 01 सितम्बर 2007

शिक्षा शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में:--

वी के कौशल (16676), शिक्षा, 01 दिसम्बर 2007

[इनका नाम ग्रुप कैप्टन ए कुमार (16675) शिक्षा के नीचे आयेगा]

संभारिकी शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में:--

एस वी लेने (15756), संभा, 01 नवम्बर 2006

एस सी महादीक (16122), संभा. 01 अप्रैल 2007
के एस फनसलकर (16123), संभा. 02 अप्रैल 2007

[इन सबका नाम ग्रुप कैप्टन ए के माधुर (15754), संभा. के नीचे आयेगा]

संख्या, दिनांक -- राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:--

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में:--

पी के मुखर्जी (15381), लेखा, 01 मई 2007

एम एन तालुकदार (15773), लेखा, 01 अक्टूबर 2007

आर मलहोत्रा (15771), लेखा 01 नवम्बर 2007

प्रशा. शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में:--

पी राघव (15334), प्रशा., 25 जून 2007/20 नवम्बर 2006 (नो.सी.)

[इनके नाम ग्रुप कैप्टन वी के बीज (14927), प्रशा. के नीचे आयेगा]

सी एस हवलदार (16256), प्रशा., 01 जून 2007

ए के पात्रा (16263), प्रशा., 01 जून 2007

[इन सबका नाम ग्रुप कैप्टन एस के पारही (16111), प्रशा. के नीचे आयेगा]

आर सिंह (15735), प्रशा., 01 जुलाई 2007

पी आर सिन्हा (16257), प्रशा., 01 सितम्बर 2007

के वी शंकर
संयुक्त निदेशक
कार्मिक (अधिकारी-2बी)

(यल सेना विभाग)

सं. 174, दिनांक 11 मार्च 2008-- राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को यल सेना से, यल सेना अनुदेश 15/79 के अधीन, सेवा निवृत्त करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

निवृत्ति

कैप्टन शालीन खेतरपाल (डीएस-1211पी), 17 अगस्त 2006 (एएन)

डी के तनेजा
मेजर जनरल
एडीजीडीएस

(यल सेना विभाग)

सं. 175, दिनांक 11 मार्च 2008-- राष्ट्रपति निम्नलिखित ए डी कोर

अधिकारी को यल सेना अनुदेश 15/79 के अधीन यल सेना से सेवा निवृत्त करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

निवृत्ति

स्वाइन लीडर शिल्पा श्रीवत्सा (डीएस-12065ए) (26906एफ), 18 अप्रैल 2007 (एएन)

डी के तनेजा
मेजर जनरल
एडीजीडीएस

(यल सेना विभाग)

शुद्धि पत्र

सं. 176, दिनांक 11 मार्च 2008 -- दिनांक 23 जुलाई 2005 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक 'नियमित सेना'-सैनिक दन्त चिकित्सा कोर (अल्पकालीन कमीशन) उपशीर्षक में 'लैफ्टि. से कैप्टन के पद पर' (डी एस-12124एफ), कैप्टन प्रवीण प्रदीप के नाम के सामने:--

के स्थान पर -- 20 मार्च 2005

पढ़ा जाए -- 16 दिसम्बर 2004

दिनांक 08 अक्टूबर 2005 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक 'नियमित सेना'-सैनिक दन्त चिकित्सा कोर (अल्पकालीन कमीशन) उपशीर्षक में 'लैफ्टि. से कैप्टन के पद पर' अफसरों के नाम के सामने:--

के स्थान पर

जॉय दीप बसक (डीएस-12128एक्स), 18 अप्रैल 2005

चन्द्र प्रकाश (डीएस-12129ए), 21 अप्रैल 2005

रवी शंकर (डीएस-12130पी), 22 अप्रैल 2005

अमित जैन (डीएस-12131एक्स), 23 अप्रैल 2005

तरुण डाबरा (डीएस-12132ए), 30 अप्रैल 2005

मनीष मिश्र (डीएस-12133एच), 30 मई 2005

गोरव गर्ग (डीएस-12135एन), 09 जून 2005

भानु शर्मा (डीएस-12136डब्ल्यू), 11 जून 2005

पढ़ा जाए

जॉय दीप बसक (डीएस-12128एक्स), 16 दिसम्बर 2004

चन्द्र प्रकाश (डीएस-12129ए), 16 दिसम्बर 2004

रवी शंकर (डीएस-12130पी), 16 दिसम्बर 2004

अमित जैन (डीएस-12131एक्स), 16 दिसम्बर 2004

तरुण डाबरा (डीएस-12132ए), 16 दिसम्बर 2004

मनीष मिश्र (डीएस-12133एच), 16 दिसम्बर 2004

गोरव गर्ग (डीएस-12135एन), 16 दिसम्बर 2004

भानु शर्मा (डीएस-12136डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004

दिनांक 18 फरवरी 2006 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक 'नियमित सेना'-सैनिक दन्त चिकित्सा कोर (स्थायी कमीशन) उपशीर्षक में 'लैफ्टि से कैप्टन के पद पर' निम्नलिखित अफसर के नाम के सामने:--

के स्थान पर

राहुल राय (डीआर-10577एन), 20 फरवरी 2005

पढ़ा जाए

राहुल राय (डीआर-10577एन), 16 दिसम्बर 2004

दिनांक 23 जुलाई 2005 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक 'नियमित सेना'-सैनिक दन्त चिकित्सा कोर (स्थायी कमीशन) उपशीर्षक में 'लैफ्टि से कैप्टन के पद पर' निम्नलिखित अफसर के नाम के सामने:--

के स्थान पर

रंगराजन एच (डीआर-10578डब्ल्यू), 22 मार्च 2005

पढ़ा जाए

रंगराजन एच (डीआर-10578डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004

दिनांक 08 अक्टूबर 2005 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक 'नियमित सेना'-सैनिक दन्त चिकित्सा कोर (अल्पकालीन कमीशन) उपशीर्षक में 'लैफ्टि से कैप्टन के पद पर' निम्नलिखित अफसर के नाम के सामने:--

के स्थान पर

विराजली सांवत (डीएस-12138एफ), 24 जून 2005

पढ़ा जाए

विराजली सांवत (डीएस-12138एफ), 24 दिसम्बर 2004

दिनांक 18 अक्टूबर 2005 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक 'नियमित सेना'-सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन) उपशीर्षक में 'लैफ्टि से कैप्टन के पद पर' निम्नलिखित अफसर के नाम के सामने:--

के स्थान पर

नवीन कौल (डीएस-12137वाई), 23 जून 2005

पढ़ा जाए

नवीन कौल (डीएस-12137वाई), 23 दिसम्बर 2004

दिनांक 23 जुलाई 2005 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक 'नियमित सेना'-सैनिक दन्त चिकित्सा कोर (अल्पकालीन कमीशन) उपशीर्षक में 'लैफ्टि से कैप्टन के पद पर' निम्नलिखित अफसर के नाम के सामने:--

के स्थान पर

प्रशान्त अवस्थी (डीएस-12125के), 22 मार्च 2005

हेमा रामदास (डीएस-12126एम), 25 मार्च 2005

पढ़ा जाए

प्रशान्त अवस्थी (डीएस-12125के), 16 दिसम्बर 2004

हेमा रामदास (डीएस-12126एम), 16 दिसम्बर 2004

दिनांक 18 फरवरी 2006 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक 'नियमित सेना'-सैनिक दन्त चिकित्सा कोर (अल्पकालीन कमीशन) उपशीर्षक में 'लैफ्टि से कैप्टन के पद पर' निम्नलिखित अफसर के नाम के सामने:--

के स्थान पर

नितिन गुप्ता (डीएस-12127पी), 15 अप्रैल 2005

पढ़ा जाए

नितिन गुप्ता (डीएस-12127पी), 16 दिसम्बर 2004

डी के तनेजा
मेजर जनरल
एड्मिनीस्ट्रेशन

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 5th April 2008

(ARMY BRANCH)

No. 164, dated 05th March, 2008.—The President is pleased to make the following appointments (Direct Permanent Commission) under AI 37/78 as amended vide AI 11/02 :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(DIRECT PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (On Probation)

Ashish Kalra (DR-10588A), 08 September, 2005 (FN)

(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (On Probation)

Ashish Kalra (DR-10588A), AD Corps, BDS Kurukshetra, 08 September, 2005

With seniority for pay and promotion from 08 March, 2005 (includes 06 months ante date for paid job of Lecturer in ITS Centre for Dental Research, Murad Nagar, Ghaziabad, which will not count for gratuity).

Deepak Kalia (DR-10589H), AD Corps, BDS-Mahe, MDS Karnataka, 21 August, 2006

With seniority for pay and promotion from 21 August, 2003 (includes 36 months ante date for MDS from AB Shetty Memorial Institute of Dental Sciences, Deralakatte Mangalore, which will not count for gratuity).

Deepak Kalia (DR-10589H), BDS (MAHE), MDS (Prosthodontics Including Crown & Bridge), 21 August, 2006 (FN)

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Capt (On Probation)

Preeti Tahlia (DS-12170W), 26 August, 2005

Senthil Kumar R (DS-12171Y), 08 September, 2005

Timothy George (DS-12172F), 09 September, 2005

Navneet Vyas (DS-12173K), 28 September, 2005

Amit B Maheshwari (DS-12174M), 26 October, 2005

Eklavya Tak (DS-12175P), 01 March, 2006

(Ms) Komal Narang (DS-12176X), 01 March, 2006

Munishwar Singh (DS-12178H), 02 March, 2006

(Ms) Shivani Mishra (DS-12179L), 03 March, 2006

Vivek Kumar Singh (DS-12180A), 04 March, 2006

(Ms) Shashikala D Honnahalli (DS-12181H), 04 March, 2006

Kapil Tomar (DS-12182L), 06 March, 2006

Anjani Kumar Jha (DS-12183N), 08 March, 2006

Kundan Kumar (DS-12184W), 09 March, 2006

Shayon Mukerjee (DS-12185Y), 09 March, 2006

Atul Gupta (DS-12186F), 09 March, 2006

Avina S Banari (DS-12188M), 10 March, 2006

Sudarshan Venkata Subba Bhat (DS-12189P), 10 March, 2006

Gagan Deep Kochar (DS-12191M), 11 March, 2006

Vinod Paul K (DS-12192P), 13 March, 2006

(Ms) Priyanka Prakash (DS-12193X), 14 March, 2006

Gaurav Arora (DS-12194A), 16 March, 2006

Omesh Tokas (DS-12195H), 16 March, 2006

Ajay Gupta (DS-12197N), 16 March, 2006

Mayank Khanna (DS-12198W), 17 March, 2006

Suraj Pratap Singh (DS-12199Y), 17 March, 2006

(Ms) Charu Visa (DS-12201L), 17 March, 2006

A Edwin (DS-12202N), 18 March, 2006

Nitin Singh Parihar (DS-12203W), 19 March, 2006

Raghavendra M H (DS-12205F), 20 March, 2006

Aditya (DS-12206K), 20 March, 2006

(Ms) S Kamala Veni (DS-12207M), 20 March, 2006

Rahul Kumar (DS-12208P), 20 March, 2006

Hari Krishan Yadav (DS-12209X), 20 March, 2006

(Ms) Ritu Mohan (DS-12210M), 20 March, 2006

Shaleen Khetarpal (DS-12211P), 21 March, 2006

Vikram S Kedlaya (DS-12212X), 21 March, 2006

Rajashankar D Gaded (DS-12213A), 21 March, 2006

Manoj Pandey (DS-12214H), 21 March, 2006

Lade Shyamsunder Narsingrao (DS-12215L), 22 March, 2006

(Ms) Pushpa Kumari (DS-12217W), 23 March, 2006

Rajinder Kaur Bhullar (DS-12177A), 02 March, 2006

Thiruvalluvan N (DS-12190K), 11 March, 2006

(Ms) Banita Dhillon (DS-12196L), 16 March, 2006

Vishal Sahai (DS-12200H), 17 March, 2006

Rajat Sood (DS-12216N), 23 March, 2006

Greesh Kumar (DS-12218Y), 26 April, 2006

Kuldip Singh (DS-12219F), 03 May, 2006

Rajendra Kumar (DS-12220W), 04 May, 2006

Dhruv Dubey (DS-12221Y), 10 May, 2006

Gaurav Dua (DS-12222F), 12 May, 2006
 Vinod Kumar (DS-12223K), 17 May, 2006
 Vineet K Dhyani (DS-12224M), 19 May, 2006
 Rajneesh Goyal (DS-12187K), 10 March, 2006
 Narendra Kumar (DS-12204Y), 19 March, 2006
 Akshai Kannan (DS-12225P), 05 January, 2007
 Alindra Mohan Mathur (DS-12226X), 10 January, 2007
 Satish Kumar (DS-12227A), 16 January, 2007
 Tapash Paul (DS-12228H), 25 January, 2007
 Basu Bansal (DS-12229L), 29 January, 2007
 Gaurav Bansal (DS-12230A), 29 January, 2007
 Vijay Lal H E (DS-12231H), 31 January, 2007
 Pulin Bihari Verma (DS-12232L), 01 February, 2007
 Amrit Thapa (DS-12233N), 01 February, 2007
 Vishvaroop (DS-12234W), 15 February, 2007
 Pankaj Arora (DS-12235Y), 17 March, 2007
 A Navin Kumar (DS-12236F), 21 March, 2007
 Gaurav (DS-12237K), 22 March, 2007
 (Ms) Sambhooti Arora (DS-12238M), 22 March, 2007
 (Ms) Shrutti Bhasin (DS-12239P), 23 March, 2007
 (Ms) Sapna Parmar (DS-12240K), 23 March, 2007
 Srigirivas R (DS-12241M), 26 March, 2007
 Mahendra Tripathi (DS-12242P), 26 March, 2007
 Bhimsen Keshav Chavadar (DS-12243X), 26 March, 2007
 (Ms) Sakshi Sharma (DS-12244A), 26 March, 2007
 Anuroop Prakash (DS-12245H), 04 May, 2007
 (Ms) Priyanka Banga (DS-12246L), 10 May, 2007
 (Ms) Chinmoyee Rout (DS-12247N), 10 May, 2007
 Satyendra K (DS-12248W), 11 May, 2007
 Rajat Sood (DS-12216N), AD Corps BDS HP, 23 March, 2006

With seniority for pay and promotion from 23 September, 2005 (includes 06 months ante date for paid job of

House Surgeon in Dept of Oral Surgery, Prosthodontics, Operative Dentistry in the HP Govt Dental College & Hospital, Shimla (HP) which will not count for gratuity).

Dhruv Dubey (DS-12221Y), AD Corps BDS Kolkata, 10 May, 2006

With seniority for pay and promotion from 10 November, 2005 (includes 06 months ante date for paid job of House Surgeon in Dr. R. Ahmed Dental College & Hospital, Kolkata which will not count for gratuity).

(Ms) Priyanka Prakash (DS-12193X), AD Corps BDS Karnataka, 14 March, 2006

With seniority for pay and promotion from 14 September, 2005 (includes 06 months ante date for paid job of Lecturer in the Oxford Dental College & Hospital, Bangalore which will not count for gratuity).

D K TANEJA
 Maj Gen
 Addl DGDS

(ARMY BRANCH)

No. 165, dated 05th March, 2008.—The President is please to make the following appointments under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Lt (On Prob)

Lieut Divey Saib (MR-08565A), AMC, 26 Mar, 2007

Lieut Vinay Kumar Tripathi (MR-08448P), AMC, 12 Oct, 2006

Lieut Vidhu Dhar Dangwal (MR-08451P), AMC, 12 Oct, 2006

Lieut Ashwani K Pandey (MR-08603L), AMC, 31 Aug, 2007

Lieut Ashish Kumar Singh (MR-08605W), AMC, 31 Aug, 2007

To be Fg Offr (On Prob)

Fg Offr Alok Singh (MR-08446K) (AF-28873), AMC, 12 Oct, 2006

G RAVINDRANATH
 Brig
 Dy DGAFMS (Pers)

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL
ENGINEERS BRANCH**

No. 166, dated 05th March, 2008.—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

SPECIAL LIST

To be Nb Sub (Religious Teachers)

Padmakar Prasad Pandey (JC-760690L), 13 May, 2006

Shukla Radhakrishna (JC-760779X), 09 Sep, 2006

Prithvi Nath Tripathi (JC-760780M), 09 Sep, 2006

Lalit Narayan Pandey (JC-760781P), 09 Sep 2006

N K KASHMIRA
Under Secy

(ARMY BRANCH)

No. 167, dated 05th March, 2008.—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his short service commission in the Army Medical Corps wef 26 Apr, 2007 and to grant his permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Flt Lt

Lovneet Kaur (MS-14880M), (MR-08515P), (AF-26932G) AMC, 31 Mar, 2003

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 11 Nov, 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

G RAVINDRANATH
Brig
Dy DGAFMS (Pers)

(ARMY BRANCH)

No. 168, dated 07th March, 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Brig (& Equivalent) to be Maj Gen (& Equivalent)

L. K Sharma (MR-03554K), 04 Apr, 2007 with notional seniority without effect on pay and pension from 01 Mar, 2007

Naresh Kumar (MR-03044H), 01 Jun, 2007 with notional seniority without effect on pay and pension from 01 May, 2007

Mahavir Singh (MR-03029N), 11 Jun, 2007 with notional seniority without effect on pay and pension from 01 Jun, 2007

H L Kakaria (MR-03434L), 30 Aug, 2007 with notional seniority without effect on pay and pension from 01 Jun, 2007

M N G Nair (MR-03034Y), 01 Sep, 2007

C J Singh (MR-03436W), 01 Oct, 2007

PERMANENT COMMISSION

Lt Col (& Equiv) to Colonel (& Equiv) (Time Scale)

Lt Col A K Kalia (MR-03405W), 16 Dec, 2004

Lt Col S D R Kshirsagar (MR-03173H), 16 Dec, 2004

Lt Col S K Jaipuriyar (MR-03432A), 16 Dec, 2004

Lt Col K K Swami (MR-03621K), 16 Dec, 2004

Lt Col A Satyanarayana (MR-03493X), 16 Dec, 2004

Lt Col H K Kochhar (MR-03651F), 16 Dec, 2004

Lt Col Mrs M Bordoloi (MR-04290L), 16 Dec, 2004

Lt Col K S Mephawat (MR-03750K), 16 Dec, 2004

Lt Col R L Jat (MR-04076X), 16 Dec, 2004

Lt Col H B Ramachandra (MR-4626P), 16 Dec, 2004

Lt Col Venugopal (MR-04834K), 16 Dec, 2004

Lt Col K V Srinivasan (MR-04696N), 16 Dec, 2004

Lt Col S S Gulati (MR-03577L), 16 Dec, 2004

Lt Col S S Thind (MR-03587P), 16 Dec, 2004

Lt Col S K Rana (MR-04226H), 16 Dec, 2004

Lt Col S Chaudhary (MR-03710H), 16 Dec, 2004

Lt Col Ajay Malik (MR-4837X), 16 Dec, 2004

Lt Col Arun Chopra (MR-04239A), 16 Dec, 2004

Lt Col K Nagendra (MR-04420X), 16 Dec, 2004

Lt Col A K Shukla (MR-04701N), 16 Dec, 2004

Lt Col H J S Gill (MR-03923W), 16 Dec, 2004

Lt Col R S Chatterji (MR-03987F), 16 Dec, 2004

Lt Col S K Saluja (MR-05371M), 16 Dec, 2004

Lt Col P R Ajmera (MR-03747K), 16 Dec, 2004

Lt Col A K Srivastava (MR-04466A), 16 Dec, 2004

Lt Col S K Mudgill (MR-04619Y), 16 Dec, 2004

Lt Col V K Bhalla (MR-03288W), 16 Dec, 2004
 Lt Col R K Gaur (MR-03426M), 16 Dec, 2004
 Lt Col D Nijhawan (MR-04136P), 16 Dec, 2004
 Lt Col A K Aghase (MR-04320M), 16 Dec, 2004
 Lt Col Rajinder Singh (MR-03913M), 16 Dec, 2004
 Lt Col A K Behre (MR-05439H), 16 Dec, 2004
 Lt Col A S Kashyap (MR-04257H), 09 Dec, 2005
 Lt Col R G Poduval (MR-04258L), 09 Dec, 2005
 Lt Col Sudhir Rai (MR-04265F), 09 Dec, 2005
 Lt Col A K Sharma (MR-04267M), 09 Dec, 2005
 Lt Col S Rajagopalan (MR-04269X), 09 Dec, 2005
 Lt Col D Bagchi (MR-04271P), 09 Dec, 2005
 Lt Col A B Khare (MR-04272X), 09 Dec, 2005
 Lt Col M Bhagat (MR-04273A), 09 Dec, 2005
 Lt Col D Bahadur (MR-04274H), 09 Dec, 2005
 Lt Col R K S Yadav (MR-04275L), 09 Dec, 2005
 Lt Col Jagtar Singh (MR-04276N), 09 Dec, 2005
 Lt Col A K Verma (MR-04280W), 09 Dec, 2005
 Lt Col H S Hooda (MR-04281Y), 09 Dec, 2005
 Lt Col S Tirumalai (MR-04283K), 09 Dec, 2005
 Lt Col R B Deoskar (MR-04285P), 09 Dec, 2005
 Lt Col S Pahiwa (MR-04402P), 09 Dec, 2005
 Lt Col R Arunachalam (MR-04958Y), 09 Dec, 2005
 Lt Col T K Som (MR-05351Y), 09 Dec, 2005
 Lt Col S P Singh (MR-05824M), 21 Dec, 2005
 Lt Col Y S Bisht (MR-05354M), 23 Dec, 2005
 Lt Col N K Biswas (MR-05608Y), 31 Dec, 2005
 Lt Col M Arora (MR-04259N), 05 Jan, 2006
 Lt Col K C Kharakwal (MR-05343A), 20 Jan, 2006
 Lt Col S Govind (MR-05103H), 29 Jan, 2006
 Lt Col S Bhargava (MR-05463Y), 06 Feb, 2006
 Lt Col V Anand (MR-05104L), 09 Feb, 2006
 Lt Col L Satija (MR-05054L), 12 Feb, 2006
 Lt Col G B Padhiary (MR-05494Y), 13 Feb, 2006
 Lt Col P K Thakur (MR-04994K), 16 Feb, 2006
 Lt Col R K Chawla (MR-05607W), 16 Feb, 2006
 Lt Col G Kamalapurkar (MR-05105N), 18 Feb, 2006
 Lt Col O P Singh (MR-05231A), 21 Feb, 2006
 Lt Col Pawanjit Singh (MR-05682A), 21 Feb, 2006
 Lt Col S K Magu (MR-05175M), 26 Feb, 2006

Lt Col to Col (Time Scale)

Lt Col (Mrs) A Goswami, VSM (MR-04617N), 16 Dec, 2004
 Lt Col D K Gund (MR-03664Y), 16 Dec, 2004
 Lt Col A Chattopadhyay (MR-04478P), 16 Dec, 2004
 Lt Col M L Verma (MR-04490W), 16 Dec, 2004
 Lt Col P M Bedekar (MR-04494M), 16 Dec, 2004
 Lt Col S K Katiyar (MR-04554W), 16 Dec, 2004
 Lt Col A C Mohapatra (MR-04231N), 16 Dec, 2004
 Lt Col Pushkar Singh (MR-03704P), 16 Dec, 2004
 Lt Col Udayanath Panda (MR-04633L), 16 Dec, 2004
 Lt Col Devendra Kumar (MR-04637F), 16 Dec, 2004
 Lt Col L M Pande (MR-04850F), 16 Dec, 2004
 Lt Col R C Sahu (MR-04646H), 16 Dec, 2004
 Lt Col G Jayaraman (MR-05167N), 16 Dec, 2004
 Lt Col (Mrs) Nayeni Surekha (MR-04704F), 16 Dec, 2004
 Lt Col V S Sarpal (MR-04653Y), 16 Dec, 2004
 Lt Col (Mrs) V V Sarpal (MR-05618H), 18 Jan, 2005
 Lt Col Devendra Swarup (MR-05348Y), 04 Mar, 2005
 Lt Col S Ramesh (MR-05101X), 14 May, 2005
 Lt Col S K Singh (MR-05364W), 27 Jul, 2005
 Lt Col B Chaudhary (MR-05497M), 19 Apr, 2006
 Lt Col S Chattopadhyay (MR-05368M), 23 Apr, 2006
 Lt Col D Ramamurti (MR-05646P), 24 Apr, 2006
 Lt Col P K Saklecha (MR-05495F), 24 Nov, 2006
 Lt Col R Surendra (MR-04673M), 01 Jan, 2007
 Lt Col B K Gandhi (MR-05349F), 18 Jan, 2007
 Lt Col R P Rama (MR-05032M), 28 Feb, 2007
 Lt Col T N Mukherjee (MR-04866M), 17 Apr, 2007

The President is pleased to make the promotions of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against them :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Flt Lt

Flt Lt Pankaj Rai (MR-08065H) (AF-27647), AMC, 30 Dec, 2004

Flt Lt Karam Chandrajit Singh (MR-07890N) (AF-26940), AMC, 04 Jan, 2004

Flt Lt M Harish Kumar (MR-07867A) (AF-26938), AMC, 04 Jan, 2004

G RAVINDRANATH
 Brig
 Dy DGAFMS (Pers)

(ARMY BRANCH)

No. 169, dated 07th March, 2008.—The President is pleased to make the following promotions (PC) under AI 37/78 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Col (TS)

B S Ajravat (DR-10296X), 16 Dec, 2004

Y Tyagi (DR-10312K), 19 Feb, 2005

Dilip Sen (DR-10321L), 19 Feb, 2005

S K Mukherjee (DR-10316A), 26 Mar, 2005

P K Arya (DR-10318L), 19 Aug, 2005

Dilip Kumar (DR-10323W), 03 Nov, 2005

P G Joshi (DR-10325F), 15 Jan, 2006

M S Mani (DR-10329X), 03 Feb, 2006

Vinod Bubber (DR-10346X), 04 Apr, 2006

(Mrs) Gita Arora (DR-10355Y), 10 May, 2006

P K Singhal (DR-10348H), 14 Dec, 2006

Anil Ahuja (DR-10337W), 04 May, 2007

SQN LDR to be WG CDR

(Ms) Priya Jeyaraj (DR-10454F) (AF-22507), 15 Apr, 2006

J K Jain (DR-10317H) (AF-17798), 19 May, 2005

A K Sharma (DR-10314P) (AF-26027), 07 Jul, 2005

R K Sharma (DR-10334M) (AF-18549), 30 Nov, 2006

D K TANEJA

Maj Gen

Addl DGDS

ARMY BRANCH

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

No. 170, dated 07th March, 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

To be Risaldar Major (ASH)

Risaldar Yadav Uday Bhan S B (JC-680326Y), 02 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Risaldar Shish Ram (JC-680286H), 02 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Risaldar S K Chatterjee (JC-680523F), 01 Sep, 2007

To be Risaldar (ASH)

Naib Risaldar Jaswinder Singh (JC-680707A), 12 May, 2007/01 May, 2007*

Naib Risaldar Mohamad Yasinnot (JC-680733F), 14 May, 2007/01 May, 2007*

Naib Risaldar Har Ram (JC-680763Y), 01 May, 2007

Naib Risaldar Chhotu Ram (JC-680767K), 11 May, 2007/01 May, 2007*

Naib Risaldar Nandji Tiwari (JC-680770P), 27 Jun, 2007/01 May, 2007*

Naib Risaldar Thomas M S (JC-680771X), 03 Jul, 2007/01 May, 2007*

Naib Risaldar R Radha Krishanan (JC-680773H), 17 Jul, 2007/01 May, 2007*

Naib Risaldar Jai Pal Singh (JC-680774L), 16 Jul, 2007/01 May, 2007*

Naib Risaldar Sanbram Singh (JC-680777Y), 13 Jul, 2007/01 May, 2007*

Naib Risaldar Prahalad Meena (JC-680779K), 01 Jun, 2007/01 May, 2007*

Naib Risaldar Lazer C (JC-680786A), 12 Jul, 2007/01 May, 2007*

Naib Risaldar Brij Bihari Singh (JC-680787H), 11 Jul, 2007/01 May, 2007*

Naib Risaldar Tribeni Singh (JC-680788L), 30 Jul, 2007/01 May, 2007*

Naib Risaldar Harender Singh (JC-680790H), 11 Jul, 2007/01 May, 2007*

Naib Risaldar Charan Singh (JC-680792H), 09 Jul, 2007/01 May, 2007*

Naib Risaldar Sher Singh (JC-680794Y), 21 Jul, 2007/01 May, 2007*

Naib Risaldar P R Baro (JC-680795F), 13 Jul, 2007/01 May, 2007*

Naib Risaldar Sachindra Singha (JC-680800F), 07 Jul, 2007/01 Jun, 2007*

Naib Risaldar Jag Ram Gurjar (JC-680801N), 06 Sep, 2007/01 Jun, 2007*

Naib Risaldar M Nanda Babu Singha (JC-680802N), 18 Jul, 2007/01 Jun, 2007*

Naib Risaldar Raghubir Singh (JC-680803P), 21 Jul, 2007/01 Jun, 2007*

Naib Risaldar M A Sub Desai (JC-680805A), 10 Jul, 2007/01 Jun, 2007*

Naib Risaldar Maruti Laxman Huli (JC-680811N), 18 Jul, 2007/01 Jun, 2007*

Naib Risaldar T Mariappan (JC-680818X), 20 Jul, 2007/01 Jun, 2007*

Naib Risaldar S N Singh (JC-680825N), 23 Jul, 2007/
01 Jun, 2007*

Naib Risaldar Shankar Lal Meena (JC-680822A), 10 Jul,
2007/01 Jun, 2007*

Naib Risaldar Mannu Singh (JC-680824L), 19 Jul, 2007/
01 Jun, 2007*

Naib Risaldar Kabal Singh (JC-680828F), 19 Jul, 2007/
01 Jul, 2007*

Naib Risaldar Ghewar Ram (JC-680839N), 30 Jul, 2007/
01 Jul, 2007*

Naib Risaldar N K Choudhary (JC-680841L), 14 Aug,
2007/01 Jul, 2007*

Naib Risaldar Ramakant (JC-680854H), 16 Jul, 2007/
01 Jul, 2007*

Naib Risaldar Birendra Singh (JC-680855L), 13 Jul,
2007/01 Jul, 2007*

Naib Risaldar Diwan Singh (JC-680859F), 01 Aug, 2007

Naib Risaldar Ghurahu Ram (JC-680860W), 14 Aug,
2007/01 Aug, 2007*

Naib Risaldar Komal Singh (JC-680863K), 01 Aug,
2007

Naib Risaldar Shree Kesh (JC-680864M), 04 Aug, 2007/
01 Aug, 2007*

Naib Risaldar J R Saikia (JC-680871H), 01 Sep, 2007

*Gtd ante- date seniority without effect on pay and alices
w.e.f.

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Nirpal Singh (JC-264786H), 01 Oct, 2007/
01 Sep, 2007*

Nb Sub Darwan Singh (JC-266408H), 03 Sep, 2007/
01 Sep, 2007*

Nb Sub Gauri Shanker Ray (JC-266670L), 07 Sep,
2007/01 Sep, 2007*

Nb Sub Mohanadas M K (JC-267206N), 01 Oct, 2007/
01 Sep, 2007*

Nb Sub Abhe Singh (JC-267334L), 15 Oct, 2007/
18 Sep, 2007*

Nb Sub Ram Vishwas Kuswaha (JC-266574W), 17 Oct,
2007/01 Jul, 2007*

Nb Sub V Palani (JC-268511M), 19 Oct, 2007/01 Aug,
2007*

Nb Sub Dushyant Kumar (JC-267943P), 15 Oct, 2007/
20 Aug, 2007*

Nb Sub S Ambethu (JC-267842F), 01 Nov, 2007/
27 Aug, 2007*

Nb Sub K Tinimaka Saradhi (JC-268504W), 29 Oct,
2007/27 Aug, 2007*

Nb Sub P Mariappan (JC-266995Y), 18 Oct, 2007/
01 Sep, 2007*

Nb Sub Om Prakash (JC-267271N), 17 Oct, 2007/
01 Sep, 2007*

Nb Sub Ram Lal (JC-269045P), 15 Dec, 2007/01 Sep,
2007*

Nb Sub Jagbhan Singh (JC-267243F), 25 Oct, 2007/
20 Sep, 2007*

Nb Sub Jagroop Singh (JC-267500N), 29 Oct, 2007/
01 Aug, 2007*

Nb Sub Savendra Singh (JC-268474K), 05 Nov, 2007/
13 Aug, 2007*

Nb Sub Raghunath (JC-266710F), 19 Nov, 2007/
20 Aug, 2007*

Nb Sub Lekh Raj (JC-267672H), 19 Nov, 2007/23 Aug,
2007*

Nb Sub Kuldeep Raj (JC-268389F), 14 Nov, 2007/
23 Aug, 2007*

Nb Sub Rakesh Kumar Chauhan (JC-267708W), 29 Oct,
2007/27 Aug, 2007*

Nb Sub Murukan V (JC-268210H), 01 Nov, 2007/
31 Aug, 2007*

Nb Sub Roshan Lal (JC-266729A), 29 Oct, 2007/
01 Oct, 2007*

Nb Sub Jagir Singh (JC-267449Y), 09 Oct, 2007/01 Oct,
2007*

Nb Sub Inderjit Singh (JC-267521K), 22 Oct, 2007/
01 Oct, 2007*

Nb Sub Uma Shanker Prasad (JC-267472M), 01 Nov,
2007

Nb Sub Gurdev Singh (JC-267111N), 15 Dec, 2007/
01 Oct, 2007*

(*Gtd Seniority w.e.f.)

P RAMA SASTRY
Under Secy

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 171, dated 10th March, 2008.—The President is
pleased to make the following appointments/promotions :—

To be Sub Maj ARMR

Sub Suprakash Mukherji (JC-754473Y), 06 Nov, 2007/
01 Nov, 2007*

Sub Santosh Kumar (JC-753511X), 15 Jan, 2007/
01 Nov, 2006*

To be Sub Maj TECH AVN

Sub Shyam Mohan Srivastava (JC-753718F), 13 Oct, 2007/01 Oct, 2007*

To be Sub Maj ARTZN (EC)

Sub Devadethan S (JC-752751H), 10 Sep, 2007/01 Sep, 2007*

Sub Ram Biney Prasad (JC-752523A), 29 May, 2007/01 May, 2007*

To be Sub Maj ARTZN (NE)

Sub Jagdish Giri (JC-752029K), 04 Sep, 2007/01 Sep, 2007*

Sub Shamshad Ahmed (JC-751847Y), 14 May, 2007/01 May, 2007*

Sub Biswamohan Sahoo (JC-751848F), 27 Aug, 2007/01 Jun, 2007*

Sub Mani Ram (JC-751052L), 01 May, 2007/01 May, 2007*

Sub A Sanmugam (JC-752027Y), 01 Sep, 2007/01 Aug, 2007*

Sub Ajit Singh (JC-751830L), 28 Aug, 2007/01 Aug, 2007*

To be Sub Maj CLK (GD)

Sub Ram Bahadur Singh (JC-748654N), 01 Feb, 2007

Sub Jasvinder Paul Singh (JC-748883Y), 01 May, 2007

Sub Shiv Prasad Singh Yadav (JC-748527Y), 01 Mar, 2007

Sub Suraj Bhan (JC-748877L), 01 May, 2007

Sub Mohanani A (JC-748999P), 01 May, 2007

Sub Bhandalker Dattu Genba (JC-748997K), 01 Mar, 2007

Sub Chuni Lal Sharma (JC-748998M), 02 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Sub Munnan Prasad Shrivastav (JC-749005P), 06 Sep, 2007/01 Aug, 2007*

To be Sub Maj DW

Sub Pitamhar Dutt (JC-752924P), 01 May, 2007

Sub Vijay Kumar (JC-754966A), 01 Jan, 2006

Sub Anadi Charan Mohanty (JC-753062N), 04 Sep, 2007/01 Sep, 2007*

Sub Devendra Prasad (JC-752822Y), 01 May, 2007

Sub Bhagwati Prasad (JC-752827X), 15 Aug, 2007/01 Aug, 2007*

Sub Mohammad Manjar (JC-752820N), 05 Feb, 2007/01 Feb, 2007*

Sub Raghuveer Prasad Sharma (JC-752815H), 02 Feb, 2007/01 Jan, 2007*

Sub Dalvi Subhash Raghu (JC-753061L), 29 Jan, 2007/01 Jan, 2007*

To be Sub Maj RT

Sub Madhav Narayan Sharma (JC-127283L), 20 Jul, 2007/01 Jun, 2007*

Sub Harish Chandra Upreti (JC-127282H), 21 Jul, 2007/01 Jun, 2007*

Sub Surendra Kumar Sharma (JC-127284N), 30 Jul, 2007/01 Jun, 2007*

Sub Dwarika Prasad Dimri (JC-127281A), 14 May, 2007/01 May, 2007*

To be Sub Maj SKT

Sub Kikar Shankar Laxman (JC-750686P), 01 Nov, 2007

Sub Peethambar V (JC-749802A), 01 Feb, 2007

Sub Upen Chandra Bora (JC-749795P), 10 Feb, 2007/01 Feb, 2007*

Sub Jeet Singh (JC-750628L), 26 Aug, 2007/01 Jun, 2007*

Sub Puran Chand Gurani (JC-749251A), 03 Feb, 2007/01 Jan, 2007*

Sub Birender Singh (JC-750631L), 01 Oct, 2007

To be Sub Maj TECH

Sub Shailendra Kumar Tripathi (JC-750767P), 09 Nov, 2007/01 Nov, 2007*

Sub R Mookkaiah (JC-751181L), 12 Oct, 2007/01 Oct, 2007*

Sub Ram Ashis Chaube (JC-750110X), 01 Mar, 2007/01 Feb, 2007*

Sub Ratan Mallick (JC-750149K), 01 Mar, 2007

Sub Ramesh Chandra (JC-750354L), 02 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Sub Saroop Singh (JC-750589X), 13 Oct, 2007/01 Oct, 2007*

Sub Abadh Kishor Yadav (JC-749575L), 08 Jan, 2007/01 Jan, 2007*

Sub Dwig Vijay Singh (JC-750892Y), 01 Oct, 2007

Sub Kedar Singh (JC-750268A), 26 Jul, 2007/01 Jul, 2007*

Sub Sakti Pada Halder (JC-750206A), 01 Mar, 2007

Sub Krishan Lal (JC-749733P), 01 Feb, 2007/01 Jan, 2007*

Sub Sen Partap Singh (JC-750553Y), 17 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Sub Johar Kumar Deb Nath (JC-750770P), 05 Nov, 2007/01 Nov, 2007*

Sub Misbahulhaq Farooqui (JC-750397A), 01 Mar, 2007

Sub J G Pando Rang (JC-750100N), 03 Mar, 2007/01 Feb, 2007*

Sub Muthu R (JC-749735A), 30 Dec, 2006/01 Jul, 2006*

Sub Ram Bali Prasad Yadav (JC-750780Y), 05 Nov, 2007/01 Nov, 2007*

Sub K Shanmugam (JC-750188H), 15 Feb, 2007/01 Feb, 2007*

Sub Jafarhussain Khan Rahi (JC-749738N), 01 Feb, 2007/01 Jan, 2007*

Sub Jangi Babu (JC-750426K), 01 Apr, 2007

Sub Sudevan P V (JC-750264K), 30 Jul, 2007/01 Jun, 2007*

Sub Nandkishor Sharma (JC-750801K), 07 Nov, 2007/01 Nov, 2007*

Sub Kashmir Singh (JC-750413M), 01 May, 2007

Sub Om Prakash Nagar (JC-749739W), 29 Jan, 2007/01 Jan, 2007*

Sub Dharma Nand (JC-749998Y), 29 Mar, 2007/01 Jan, 2007*

Sub Laxman Singh Pundir (JC-750265M), 02 Aug, 2007/01 Jul, 2007*

Sub Shivraj Singh Rathore (JC-750262Y), 28 Jul, 2007/01 Jun, 2007*

Sub Tula Ram (JC-749843K), 20 Dec, 2006/01 Nov, 2006*

Sub Karan Singh Rawat (JC-749722H), 28 Jan, 2007/01 Jan, 2007*

Sub R S Viswakrema (JC-750419N), 01 May, 2007

Sub Ram Bachan Yadav (JC-750238H), 01 Apr, 2007

Sub Govinda Raju P M (JC-750754X), 03 Nov, 2007/01 Oct, 2007*

Sub Bijali Prasad (JC-750569K), 03 Sep, 2007/01 Sep, 2007*

Sub Jai Prakash (JC-750274N), 29 Oct, 2007/01 Aug, 2007*

Sub Vinod Kumar Mishra (JC-750263F), 30 Jul, 2007/01 Jun, 2007*

Sub Sarabjeet Singh (JC-749902L), 03 Feb, 2007/01 Dec, 2006*

Sub Vishnu Prakash (JC-750418L), 01 May, 2007

Sub Radha Krishanan Kr (JC-751652N), 13 Feb, 2007/01 Feb, 2007*

Sub Bhoge Ashok Satvala (JC-750186X), 06 Mar, 2007/01 Feb, 2007*

Sub Vidya Nand Sharma (JC-749903N), 13 Jan, 2007/01 Dec, 2006*

Sub Suresh Chander (JC-750750F), 22 Oct, 2007/01 Oct, 2007*

Sub Uma Shanker Rai (JC-750828F), 02 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Sub Rakesh Kumar (JC-750557P), 05 Sep, 2007/01 Sep, 2007*

Sub Kavi Raj (JC-749491X), 15 Feb, 2007/01 Feb, 2007*

Sub S Dhamotharan (JC-749973M), 02 Feb, 2007/01 Jan, 2007*

Sub Balwant Singh (JC-750350P), 01 Apr, 2007

Sub Lala Ram (JC-750415X), 01 May, 2007

Sub Kale Shankar Maruti (JC-749996N), 24 Jan, 2007/01 Jan, 2007*

Sub Geetam Singh (JC-749971F), 05 Feb, 2007/01 Jan, 2007*

Sub Sureshpal (JC-750406W), 09 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Sub Jai Prakash Yadav (JC-750061A), 30 Jan, 2007/01 Jan, 2007*

Sub Sashi Dharan G (JC-749545N), 03 Oct, 2006/01 Sep, 2006*

Sub Balbir Singh (JC-750055M), 29 Jan, 2007/01 Jan, 2007*

Sub Rama Shish Mishra (JC-750077L), 19 Feb, 2007/01 Feb, 2007*

Sub Gian Singh (JC-750297P), 05 Sep, 2007/01 Aug, 2007*

Sub Deba Prasad Dash (JC-750062H), 29 Jan, 2007/01 Jan, 2007*

Sub D Palani (JC-749967Y), 06 Nov, 2006/01 Nov, 2006*

Sub Sushil Kumar (JC-750102Y), 19 Feb, 2007/01 Feb, 2007*

Sub Sunder Lal (JC-750566W), 27 Sep, 2007/01 Sep, 2007*

Sub A Mariappan (JC-750571F), 05 Sep, 2007/01 Sep, 2007*

Sub Varvghese K M (JC-750078N), 12 Feb, 2007/01 Feb, 2007*

Sub Raj Kumar Thakur (JC-750576A), 12 Oct, 2007/01 Sep, 2007*

Sub Harendra Singh (JC-750112H), 01 Feb, 2007

Sub N Narasimha Rajan (JC-750269H), 27 Jul, 2007/
01 Jul, 2007*

Sub Baldev Singh (JC-750643A), 11 Oct, 2007/01 Oct,
2007*

Sub Chandramaul Singh (JC-750552W), 05 Sep, 2007/
01 Sep, 2007*

Sub Natraj Ramachandra Zende (JC-750323L), 27 Aug,
2007/01 Aug, 2007*

Sub Bhupinder Kumar (JC-750585F), 11 Oct, 2007/
01 Oct, 2007*

Sub Suresh Babu B (JC-750098F), 01 Mar, 2007

Sub Nand Kumaran KG (JC-750741A), 01 Oct, 2007

Sub Gulshan Kumar (JC-750573M), 07 Sep, 2007/
01 Sep, 2007*

Sub Radheshyam Nath Tripathi (JC-750444M), 11 Oct,
2007/01 Aug, 2007*

Sub Anooob TK (JC-750285A), 04 Sep, 2007/01 Aug,
2007*

Sub Abdur Rab Ansari (JC-750559A), 08 Oct, 2007/
01 Sep, 2007*

To be Sub Maj TECH AVN

Sub Bikrama Parida (JC-753760W), 07 Sep, 2007/
01 Sep, 2007*

Sub Suresh Chand Yadav (JC-753756N), 06 Aug, 2007/
01 Jun, 2007*

Sub Sushil Mondal (JC-753759F), 07 Sep, 2007/01 Aug,
2007*

Sub Radhe Shyam Singh (JC-753740H), 10 May, 2007/
01 May, 2007*

Sub Umesh Kumar Singh (JC-753742N), 07 May, 2007/
01 May, 2007*

Sub Sribatsa Kumar Baral (JC-753743W), 25 Aug, 2007/
01 Aug, 2007*

Sub Vijai Kumar (JC-753717P), 01 Apr, 2007/01 Mar,
2007*

*Gtd ante dated seniority

To be Sub ARMN

Nb Sub Saimon K C (JC-757988K), 09 Feb, 2007/
01 Jan, 2007*

Nb Sub Dayanidhi (JC-758068Y), 01 Apr, 2007/01 Apr,
2007*

To be Sub ARTZN(EC)

Nb Sub M Nagurajan (JC-756909X), 02 Jan, 2007/
01 Dec, 2006*

Nb Sub Satyaveer (JC-757114W), 01 Apr, 2007/01 Apr,
2007*

Nb Sub Om Parkash Vishwakarma (JC-758488Y),
19 Feb, 2007/01 Jan, 2007*

Nb Sub Thakur Singh Bafila (JC-757146Y), 01 Apr,
2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Madan Mohan Mondal (JC-758492F), 17 Mar,
2007/01 Feb, 2007*

Nb Sub Surendar Kumar (JC-758501X), 07 Mar, 2007/
01 Feb, 2007*

Nb Sub Parmanand Sharma (JC-757134K), 01 Apr,
2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Venkata Raman Ippili (JC-757028L), 01 Apr,
2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub Jugal Kishor Yadav (JC-757139H), 01 Apr,
2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Santosh Kumar (JC-758819P), 03 Apr, 2007/
05 Dec, 2006*

Nb Sub Karambir (JC-757013H), 03 Apr, 2007/05 Dec,
2006*

Nb Sub Rajahans Gajanan Shriram (JC-758503H),
09 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Parameswaran Nair Kr (JC-758499L), 16 Apr,
2007/01 Apr, 2007*

To be Sub ARTZN(NB)

Nb Sub Babudhan Ram (JC-756414L), 09 Feb, 2007/
06 Jul, 2006*

Nb Sub Dhruvvarayan Jha (JC-757309F), 01 Jan, 2007/
01 Dec, 2006*

Nb Sub Sankar Kumar Biswas (JC-756543L), 11 Apr,
2007/27 Nov, 2006*

To be Sub CLK(GD)

Nb Sub Sita Ram Dash (JC-754644A), 26 Mar, 2007/
01 Mar, 2007*

Nb Sub Ramesh Chandra Khanda (JC-754679W),
02 Apr, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub Sudarsan Behera (JC-754681N), 16 Apr, 2007/
01 Apr, 2007*

Nb Sub Benudhar Samal (JC-754643X), 28 Mar, 2007/
01 Mar, 2007*

To be Sub DW

Nb Sub Jas Ram Yadav (JC-758924L), 12 Feb, 2007/
01 Jan, 2007*

Nb Sub Lal Singh (JC-758973N), 03 Feb, 2007/01 Feb,
2007*

Nb Sub Toran Singh (JC-759121L), 06 Mar, 2007/
01 Feb, 2007*

Nb Sub Sampat Muchandi (JC-759079X), 08 Mar, 2007/
01 Mar, 2007*

Nb Sub Dinesh Kumar Sharma (JC-759081P), 05 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Mani Dhan Sinha (JC-758769P), 10 Apr, 2007/05 Dec, 2006*

To be Sub RT

Nb Sub Kripa Shankar (JC-752190Y), 03 Feb, 2007/01 Feb, 2007*

To be Sub SKT

Nb Sub Mulak Raj (JC-754478X), 01 Feb, 2007/01 Feb, 2007*

Nb Sub Sathia Narayana Thanthry (JC-754479A), 05 Mar, 2007/01 Feb, 2007*

Nb Sub Om Pal Sharma (JC-754532A), 05 Mar, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub Babu Singh (JC-754533H), 03 Apr, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub Bitupan Kumar Baruah (JC-754484L), 01 Mar, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub H B C Kandpal (JC-754636F), 03 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Z Nazar (JC-754713L), 19 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Purna Nand (JC-754616N), 03 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

To be Sub TECH

Nb Sub Chavan Gorakh Mahadev (JC-756879L), 12 Jan, 2007/01 Nov, 2006*

Nb Sub Dharam Pal (JC-757116F), 10 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Harish Chandra (JC-756730K), 18 Apr, 2007/23 Jan, 2007*

Nb Sub Amitava Konar (JC-756921Y), 18 Jan, 2007/01 Dec, 2006*

Nb Sub Tarkeshwar Mishra (JC-757128W), 04 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub P K Swain (JC-756988X), 13 Mar, 2007/01 Feb, 2007*

Nb Sub Iashod Singh Bisht (JC-756887K), 03 Feb, 2007/01 Jan, 2007*

Nb Sub Puran Singh (JC-757104M), 03 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Gian Chand (JC-756957X), 03 Feb, 2007/01 Jan, 2007*

Nb Sub Satish Kumar (JC-756999K), 03 Feb, 2007/01 Feb, 2007*

Nb Sub Markandey Prasad Shukla (JC-757026A), 05 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Hari Kuttan (JC-757063N), 02 Mar, 2007/01 Feb, 2007*

Nb Sub Ratan Kumar Mondol (JC-757007P), 01 Feb, 2007/01 Feb, 2007*

Nb Sub Laxman Singh (JC-757111H), 01 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Rama Jayam M (JC-757078W), 04 Apr, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub Sukhendra Nath (JC-757009A), 19 Feb, 2007/01 Feb, 2007*

Nb Sub Mahavir Singh (JC-757010P), 01 Feb, 2007/01 Feb, 2007*

Nb Sub Sanjay Kumar (JC-756435F), 03 Apr, 2007/25 Feb, 2007*

Nb Sub Maha Narayan (JC-756989A), 19 Mar, 2007/01 Feb, 2007*

Nb Sub Ashok Kumar Singh (JC-757072P), 08 Mar, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub Peer Mohammad (JC-756990P), 01 Mar, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub Virendra Singh (JC-757070L), 05 Mar, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub Rakesh Babu Yadav (JC-757062L), 01 Feb, 2007/01 Feb, 2007*

Nb Sub Talebar Rahman (JC-757022K), 01 Mar, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub Chandramani Parida (JC-757066F), 14 Mar, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub Munvir Singh (JC-756932L), 03 Apr, 2007/01 Jan, 2007*

Nb Sub Mahinder Singh (JC-756927A), 20 Mar, 2007/01 Jan, 2007*

Nb Sub S Alagarsamy (JC-757068M), 08 Mar, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub M Gamasekaran (JC-756881H), 26 Dec, 2006/01 Nov, 2006*

Nb Sub Ambika Prasad Acharya (JC-757071M), 08 Mar, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub Meghraj Tanwar (JC-757109L), 03 Apr, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub Sajeev Kumar S (JC-757077N), 02 Apr, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub Rahimat Khan (JC-757076L), 09 Apr, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub Bhanwar Lal Kumhar (JC-757107A), 01 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Md Rabiul Hoque Molla (JC-757148K), 01 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub B S Chauhan (JC-756997Y), 26 Mar, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Prem Kumar (JC-757074A), 02 Apr, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub Rajat Kumar Maitra (JC-757149M), 01 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Pitamber Datt (JC-757105P), 04 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Mahadev Sahu (JC-757075H), 04 Apr, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub Jai Pal (JC-757106X), 03 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Uttam Singh (JC-757147F), 05 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Vijay Singh (JC-757069P), 01 Apr, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub Abdul Khair (JC-757121M), 04 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Rajender Singh (JC-757126L), 04 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Raj Kumar (JC-757145W), 03 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub M Bhisma Rao (JC-757138A), 03 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Thomas A (JC-757135M), 02 Apr, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub Ramendra Nath Tripathi (JC-757127N), 04 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Bijay Sarkar (JC-757137X), 01 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Sri Santosh Kumar (JC-757119P), 03 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Sasi K (JC-757125H), 01 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub S Soundra Rajan (JC-757027H), 13 Apr, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub Ram Singh (JC-757140X), 07 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Suresh Babu (JC-757122P), 01 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Ramniwas Sharma (JC-757023M), 07 Mar, 2007/01 Mar, 2007*

Nb Sub Prakash K (JC-757129Y), 02 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Vijay Kumar P (JC-757025X), 03 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Brahmanand Jha (JC-757133F), 01 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Santosh Kumar Sahu (JC-756597M), 28 Mar, 2007/01 Sep, 2006*

Nb Sub Mahendra Pratap (JC-757024P), 01 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

Nb Sub Satya Nath Mohanta (JC-757141A), 02 Apr, 2007/01 Apr, 2007*

*Gtd ante dated seniority

N K KASHMIRA
Under Secy.

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 172, dated 10th March, 2008.—The following promotions are made :—

2. The under-mentioned individuals are promoted from STA 'C' to TO 'A' w.e.f. 01 Sep, 2007 (F/N).

Sl. No.	Name	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Scale of Promoted Grade
1	2	3	4	5	6
	(Shri/Smt)				
01.	Om Prakash	IRDE	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
02.	A K Gaur	IRDE	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
03.	P Krishnan	LASTEC	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
04.	Vinod Kumar Chaudhary	TBRL	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
05.	Gurdeep Singh	TBRL	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-

1	2	3	4	5	6
	(Shri/Smt)				
06.	I K Prasad	NSTL	TO 'C'	TO 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
07.	M Rao Jagadeeswara	NSTL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
08.	P Kaniki Reddy	NSTL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
09.	R Rajashree	NSTL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
10.	P V Thrinadhachari	NSTL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
11.	V V Nageswararao	NSTL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
12.	V Ramakrishna Rao	NSTL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
13.	K Upmakaraju	NSTL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
14.	K Uttama Bhaskar	NSTL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
15.	T Venkata Ratnam	NSTL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
16.	R Madhava Rao	NSTL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
17.	N Renu Kumar	NSTL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
18.	A S N Murthy	NSTL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
19.	M Naga Raju	NSTL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
20.	P Adinarayana	NSTL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
21.	A Uma Kanta Rao	NSTL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
22.	P V R K Rayalu	NSTL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
23.	Ashok Kumar Abrol	TBRL	TO 'C'	TO 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
24.	N D Mittal	TBRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
25.	Balwinder Singh	TBRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
26.	Balkrishan	TBRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
27.	Har Dev Singh	TBRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
28.	A S Lakhera	IRDE	TO 'C'	TO 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
29.	Vinod Kumar Dalakoti	IRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
30.	Dinesh Chandra Joshi	IRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
31.	D P Bahuguna	IRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
32.	Ram Vinay Singh	IRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
33.	Brahm Prakash	IRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
34.	Major Singh	IRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
35.	Vipin Chandra	IRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
36.	R M Ghildiyal	IRDE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
37.	K L Bhatia	IRDE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
38.	Mansoor Ahmad	IRDE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
39.	R P Kotnala	IRDE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
40.	A V Deosthale	RDE(E)	TO 'C'	TO 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
41.	V A Orpe	RDE(E)	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
42.	V M Dange	RDE(E)	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
43.	S D Ladkat	RDE(E)	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-

1	2	3	4	5	6
44.	P K Gangopadhyaya	RDE(E)	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
45.	S S Kumbhar	RDE(E)	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
46.	S B Eklare	RDE(E)	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
47.	A S Mudliyar	RDE(E)	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
48.	B P Sawale	RDE(E)	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
49.	V R Jalwadi	RDE(E)	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
50.	N P Deshmukh	RDE(E)	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
51.	N Madhusudanan	RDE(E)	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
52.	R B Todkar	RDE(E)	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
53.	R B Wale	RDE(E)	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
54.	G R Satpute	RDE(E)	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
55.	R P Bhalgat	RDE(E)	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
56.	Clara Jacob	RDE(E)	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
57.	A D Bhosale	RDE(E)	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
58.	S M Bhawe	RDE(E)	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
59.	S N Dube	RDE(E)	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
60.	V S Kaktikar	RDE(E)	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
61.	B E More	RDE(E)	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-

B B SHARMA
Jt Director (Pers-1)

(AIR BRANCH)

No. 173, dated 10th March, 2008.—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

INDIAN AIR FORCE

AE BRANCH

To be Substantive Air CMDE (AE Branch)

Rank, Name, Number, BR and Date

Air CMDE (ACTG) P P Khandekar (15095), AE(L), 01 October 2007

(His name will appear below Air CMDE R Chopra (15087) AE(L) in the combined gradation list)

Air CMDE (ACTG) C Mohanty (15084), AE(L), 01 December, 2007

Air CMDE (ACTG) R Chopra (15087), AE(L), 03 September, 2007

(His name will appear below Air CMDE D S Khajuria (15073) AE(M) in the combined gradation list)

(FLYING BRANCH)

To be Substantive Air CMDE (Flying Branch)

Rank, Name, Number, BR and Date

Air CMDE (ACTG) R Dhar (14561), F(P), 16 June, 2007/01 March, 2006 (For seniority purpose only)

(His name will appear below Air CMDE R Dhar (14559), F(P), and above Air CMDE V K Chopra (14563), F(P) in the combined gradation list).

Air CMDE (ACTG) S Neelakantan (15184), F(P), 25 October, 2007/11 Jun. 2007 (For seniority purpose only)

Air CMDE (ACTG) A P Kaduskar (Retd-14 August, 2007) (15189), F(P), 11 June, 2007

Air CMDE (ACTG) K P Nair (15195), F(P), 11 June, 2007

Air CMDE (ACTG) K S Bhardwaj (15207), F(P), 11 June, 2007

Air CMDE (ACTG) K S Gill (15220), F(P), 26 September, 2007/01 September, 2007 (For seniority purpose only)

Air CMDE (ACTG) A S Bhonsle (15327), F(N),
01 September, 2007

Air CMDE (ACTG) G P Singh (15417), F(P),
01 September, 2007

Air CMDE (ACTG) D P Upot (15544), F(P),
01 September, 2007

EDN BRANCH

To be Substantive GP Capt (EDN Branch)

Rank, Name, Number, BR and Date

GP Capt (ACTG) V K Kaushal (16676), EDN,
01 December, 2007

(His name will appear below GP Capt A Kumar (16675)
EDN in the combined gradation list).

LGS BRANCH

To be Substantive GP Capt (LGS Branch)

Rank, Name, Number, BR and Date

GP Capt (ACTG) S V Nene (15756), LGS, 01 November,
2007

GP Capt (ACTG) S C Mahadik (16122), LGS, 01 April,
2007

GP Capt (ACTG) K S Phansalkar (16123), LGS,
02 April, 2007

(Their names will appear below GP CAPT A K Mathur
(15754), LGS in the combined gradation list)

(ACCTS BRANCH)

To be Substantive GP Capt (ACCTS Branch)

Rank, Name, Number, BR and Date

GP Capt (ACTG) P K Mukherjee (15381), ACCTS,
01 May, 2007

GP Capt (ACTG) M N Talukdar (15773), ACCTS,
01 October, 2007

GP Capt (ACTG) R Malhotra (15771), ACCTS,
01 November, 2007

(ADM BRANCH)

To be Substantive GP Capt (ADM Branch)

Rank, Name, Number, BR and Date

GP Capt (ACTG) P Raghav (15334), ADM, 25 June,
2007/20 November, 2006(NS)

(His name will appear below GP Capt V K Vij (14927)
ADM in the combined gradation list).

GP Capt (ACTG) C S Havaladar (16256), ADM, 01 June,
2007

GP Capt (ACTG) A K Patra (16263), ADM, 01 June,
2007

(Their names will appear below GP CAPT S K Parhi
(16111) ADM in the combined gradation list).

GP Capt (ACTG) R Singh (15735), ADM, 01 July, 2007

GP Capt (ACTG) P R Sinha (16257), ADM,
01 September, 2007

K V SHANKAR

Jt. Dir of Personnel (Officers)-2(B)

ARMY BRANCH

No. 174, dated 11th March, 2008.—The President is
pleased to permit the undermentioned AD Corps officer to
resign from Army Service at his own request w.e.f the date
shown against his name under AI 15/79 :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

RESIGNATION/RELEASE

Capt Shaleen Khetarpal (DS-12211P), 17 August 2006
(AN).

D K TANEJA

Maj Gen

Addl DGDS

ARMY BRANCH

No. 175, dated 11th March, 2008.—The President is
pleased to release the undermentioned officer from Army
Service w.e.f. the date shown against her name under
AI 15/79 :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

RELEASE

Sqn Ldr (Ms) Shilpa Srivatsa (DS-12065A) (26906F),
18 April, 2007 (AN)

D K TANEJA

Maj Gen

Addl DGDS

ARMY BRANCH

CORRIGENDA

No. 176, dated 11th March, 2008.—In Ministry of
Defence Gazette Notification No. published in the Gazette
of India dated 23-07-05 under the heading, "REGULAR
ARMY" ARMY DENTAL CORPS (SHORT SERVICE
COMMISSION) Sub heading Lt to be Capt against the
name of DS-12124F Capt Pravin Prathip.

For 20th March, 2005

Read 16th December, 2004

In Ministry of Defence Gazette Notification No. published in the Gazette of India dated 08-10-2005 under the heading, "REGULAR ARMY" ARMY DENTAL CORPS (SHORT SERVICE COMMISSION) Sub heading Lt to be Capt against the names of following officers :—

For

Joydip Basak (DS-12128X), 18 April, 2005

Chander Prakash (DS-12129A), 21 April, 2005

Ravi Shanker (DS-12130P), 22 April, 2005

Amit Jain (DS-12131X), 23 April, 2005

Tarun Dabra (DS-12132A), 30 April, 2005

Manish Mittal (DS-12133H), 30 May, 2005

Gaurav Garg (DS-12135N), 09 June, 2005

Bhanu Sharma (DS-12136W), 11 June, 2005

Read

Joydip Basak (DS-12128X), 16 December, 2004

Chander Prakash (DS-12129A), 16 December, 2004

Ravi Shanker (DS-12130P), 16 December, 2004

Amit Jain (DS-12131X), 16 December, 2004

Tarun Dabra (DS-12132A), 16 December, 2004

Manish Mittal (DS-12133H), 16 December, 2004

Gaurav Garg (DS-12135N), 16 December, 2004

Bhanu Sharma (DS-12136W), 16 December, 2004

In Ministry of Defence Gazette Notification No. published in the Gazette of India dated 18-10-2005 under the heading, "REGULAR ARMY" ARMY DENTAL CORPS (PERMANENT COMMISSION) Sub heading Lt to be Capt against the name of following officer :—

For

Rahul Rai (DR-10577N), 20 February, 2005

Read

Rahul Rai (DR-10577N), 16 December, 2004

In Ministry of Defence Gazette Notification No. published in the Gazette of India dated 23-07-2005 under the heading, "REGULAR ARMY" ARMY DENTAL CORPS (PERMANENT COMMISSION) Sub heading Lt to be Capt against the name of following officer :—

For

Rangarajan H (DR-10578W), 22 March, 2005

Read

Rangarajan H (DR-10578W), 16 December, 2004

In Ministry of Defence Gazette Notification No. published in the Gazette of India dated 08-10-2005 under the heading, "REGULAR ARMY" ARMY DENTAL CORPS (SHORT SERVICE COMMISSION) Sub heading Lt to be Capt against the name of following officer :—

For

(Ms) Veeranjali Sawant (DS-12138F) 24 June, 2005

Read

(Ms) Veeranjali Sawant (DS-12138F), 24 December, 2004

In Ministry of Defence Gazette Notification No. published in the Gazette of India dated 18-10-2005 under the heading, "REGULAR ARMY" ARMY DENTAL CORPS (SHORT SERVICE COMMISSION) Sub heading Lt to be Capt against the name of following officer :—

For

Navin Kaul (DS-12137Y), 23 June, 2005

Read

Navin Kaul (DS-12137Y), 23 December, 2004

In Ministry of Defence Gazette Notification No. published in the Gazette of India dated 23-07-2005 under the heading, "REGULAR ARMY" ARMY DENTAL CORPS (SHORT SERVICE COMMISSION) Sub heading Lt to be Capt against the names of following officers :—

For

Prashant Awasthi (DS-12125K), 22 March, 2005

(Ms) Hema Ramdas (DS-12126M), 25 March, 2005

Read

Prashant Awasthi (DS 12125K), 16 December, 2004

(Ms) Hema Ramdas (DS-12126M), 16 December, 2004

In Ministry of Defence Gazette Notification No. published in the Gazette of India dated 18-02-2006 under the heading, "REGULAR ARMY" ARMY DENTAL CORPS (SHORT SERVICE COMMISSION) Sub heading Lt to be Capt against the name of following officer :—

For

Nitin Gupta (DS-12127P), 15 April, 2005

Read

Nitin Gupta (DS-12127P), 16 December, 2004

D K TANEJA
Maj Gen
Addl DGDS